



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2011 (भाद्रपद 12, 1933)

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2011 (BHADRA 12, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2011

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

सं. 375, दिनांक 26 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक  
स्टाफ में 01 जुलाई 2011 से निम्नलिखित नियुक्ति करती हैं :--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल के के नोहवार, पीविसेमै, वा मै (13132) एफ(पी)

एयर मार्शल एस मुकर्जी, पविसेमै, एससी, विसेमै (12925) एफ(पी)  
(सेवानिवृत्त) के स्थान पर।

आर सुन्दर  
अवर सचिव

सं. 376, दिनांक 26 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, नागरिक उड्डयन मंत्रालय  
के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एस एन शर्मा का नाम

केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 2010 की चयन ग्रेड (उप सचिव) की  
चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण  
विभाग के दिनांक 04 अप्रैल, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-  
सीएस-I(डी) के तहत रक्षा मंत्रालय में, 06 अप्रैल, 2011 (पूर्वाह्न) से,  
नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के रूप में  
नियुक्त करते हैं

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री एस एन शर्मा की नियुक्ति  
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) के वैयक्तिक स्टाफ  
में विशेष कार्याधिकारी के पद पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं  
14 जून 2011 (अपराह्न) से भारी उद्योग मंत्रालय को सौंपी जाती हैं

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग'  
को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मार्च 2011 के का.ज्ञा.  
सं. 4/2/2011-सीएस-II(ए) के अनुसार 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु.  
ग्रेड वेतन संशोधित वेतनमान में 2 मई 2011 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर 2011  
तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश  
जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर, निम्नलिखित  
शर्तों के अधधीन, इसी मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) पद पर नियुक्त करते हैं:--

सी एल सचदेवा

वी एस रावत

सुकलाल वर्मा

तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा

तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मार्च 2011 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2011सीएस-II(ए) के अनुसार 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. ग्रेड वेतन संशोधित वेतनमान में 29 अप्रैल 2011 के पूर्वाह्न से 30 सितम्बर 2011 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन, इसी मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) पद पर नियुक्त करते हैं:--

रीता घोष

एस पी भटनागर

वीरेन्द्र कुमार

प्रवीण अरोड़ा

उमेश चन्द्र पाण्डेय

के माधवी

राधा गर्ग

एन रामामूर्ति

एस के श्रीवास्तव

देवेश्वरी चौहान

नरेन्द्र कौर

सुनील कुमार त्रेहान

पुष्पा मनचंदा

वीना भल्ला

वी मुरलीधरण

एस भागचंदानी

मंजु बाला अरोड़ा

रजनी मनोरंजन

एन सी एस बोरा

अशोक कुमार चक्रवर्ती

अंजली रानी अलग

सुजाथा प्रसाद

सुरेन्द्र कुमार शर्मा

नीलम बंसल

सुषमा नागपाल

ए के शर्मा

इन्द्रजीत शर्मा

उमराव सिंह

रचना गाबा

संजय भल्ला

राकेश कुमार

अनिल भल्ला

रुकमणी

सतीश चन्द्र

हरीश सुकरम डोंगरे

कमल गांधी

रीता मनचंदा

सुनीता शर्मा

शांति नेगी

परमजीत जुनेजा

सुरेश बी मानकर

तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा

तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है

के मुरली  
अवर सचिव

वायु सेना मुख्यालय

सं. 377, दिनांक 26 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) को रक्षा मुख्यालय सिविल सेवा में नियमावली 2001 की धारा 7(8) के अधीन अस्थाई उप निदेशक (ग्रुप 'क' राजपत्रित, वेतनबैंड-3, रु. 15,600--39,100/-) के पद पर दिनांक 19 अप्रैल 2011 से 18 अक्टूबर 2011 तक अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की

तिथि अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक के समय में से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :--

एस के सिंह, 13 जनवरी 1956

उमाकान्त पांडे, 14 दिसम्बर 1959

यू एल मीणा, 03 मई 1966

विनोद कुमार शर्मा, 08 नवम्बर 1962

एस के गायेन, 01 अप्रैल 1965

रंजीत सिंह, 01 जुलाई 1965

सुभाष चन्द्र, 27 दिसम्बर 1961

प्रसन्न कुमार दास, 02 मई 1963

सुपर्णा प्रसाद देव, 01 जनवरी 1968

महेन्द्र कुमार, 06 फरवरी 1967

सुरेश कुमार, 15 जून 1964

रविन्द्र नाथ दास, 19 जनवरी 1964

कामत शाह, 17 मई 1964

यह नियुक्तियाँ निम्नलिखित नियम व शर्तों के अध्याधीन है:--

यह नियुक्तियाँ पूर्णतः कामचलाऊ आधार पर हैं तथा प्रशासनिक कारणों अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है।

उप निदेशक के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा और न ही नियम 7(8) के आधीन उप निदेशक के रूप में की गई उनकी सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के लिए माना जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी सहर्ष, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सहायकों को तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (ग्रुप ख राजपत्रित, वेतनबैंड-2, रु. 9,300--34,800/- + 4,800/- ग्रेड वेतन), के पद पर दिनांक 03 मई 2011 से एक वर्ष की अवधि तक अथवा सेवानिवृत्त होने तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक में से जो भी पहले हो, उस समय तक नियुक्त करते हैं:--

दीपक कुमार

आर एन बनाती

किरण फुल

यह नियुक्ति निम्नलिखित नियम व शर्तों के अध्याधीन है:--

यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी का कोई दावा नहीं होगा।

उच्च ग्रेड में पदोन्नति की पात्रता के लिए अनुभाग अधिकारी की तदर्थ आधार पर की गई सेवा को वरिष्ठता नहीं दी जाएगी।

ए के लारोइया  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

नौसेना

एकीकृत मुख्यालय

सं. 378, दिनांक 27 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03 दिनांक 26 मई 2010, एमएफ/1401/ डीईएस/अनु-II/03 दिनांक 04 सितम्बर 2008 एवं एमएफ/1822/डीईएस/अनु-IV/03 दिनांक 26 मई 2010 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा ( सामान्य सेवा, संधारिकी कैंडर, वायु यातायात सेवा, विधि कैंडर, नौसेना आयुध निरीक्षण कैंडर), शिक्षा शाखा, अभियांत्रिक शाखा ( सामान्य सेवा), वैधुत शाखा ( सामान्य शाखा), अभियांत्रिक शाखा ( पनडुब्बी शाखा), वैधुत शाखा (पनडुब्बी शाखा) एवं अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प शाखा)-जुलाई/अगस्त 2007 में सीधी भर्ती योजना/विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

सब-ले के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म तथा कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा ( सामान्य सेवा)-जुलाई 2007

राहुल शिन्दे (06063बी), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

प्रभदीप सिंह संधु (06064एफ), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

तिलक सिंह बलोरिया (06065एच), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

संदीप चिन्तालापल्ले (06067एन), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

निर्मल कुमार आर्ले (06069टी), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

सुनील कुमार यादव (06070डब्ल्यू), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

हुसैन जुजर सकेरवाला (06071वाई), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

राजीव भगवानराव गाइट (06073ए), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

सचिन वर्मा (06074बी), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

अमरनाथ बी. प्रभाकर (06076एच), अस्थायी, 15 जुलाई 2007

अमन शर्मा (06077के), अस्थायी, 09 जुलाई 2007

सचिन नायर (06078एन), अस्थायी, 23 जुलाई 2007

वरुण कुमार धंद (06079आर), अस्थायी, 29 जुलाई 2007

राहुल चरण (06080टी), अस्थायी, 30 जुलाई 2007

कार्यकारी शाखा (संधारिकी कैंडर)-अगस्त 2007

ज्योत्सना नागरकोटी (06081डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007

सरीता नागयच (06082वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007

काबेरी कस्तुरी (06083जैड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007

- आशुतोष किमोथी (06084ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 हितेन्द्र प्रताप सिंह जाडन (06085बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 पवन कुमार (06086एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 मुकेश भंडारी (06087एच), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अमित कुमारी (06089एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 मनीष कुंडू (06090आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 मिथुन नायर (06091टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विद्या सागर मेहता (06092डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 प्रदीप कुमार (06093वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 दिप्ती बहल (06094जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 मनीष डिमरी (06095ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विजेता यादव (06096बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 तरनजीत सिंह (06097एफ), अस्थायी, 16 अगस्त 2007  
 भानु प्रताप सिंह (06098एच), अस्थायी, 17 सितम्बर 2007  
 स्वराज सिंह (06099के), अस्थायी, 18 अगस्त 2007  
 संदीप सिंह (06100एन), अस्थायी, 19 अगस्त 2007  
 अंजली तिवारी (06101आर), अस्थायी, 19 अगस्त 2007  
 कार्यकारी शाखा (वायु यातायात सेवा)-अगस्त 2007  
 संजीव कुमार (06102टी), अस्थायी, 18 अगस्त 2007  
 अरूण कुमार पात्रा (06103डब्ल्यू), अस्थायी, 20 अगस्त 2007  
 गुरमीत कौर (06104वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 स्वप्ना अंदमुक्की (06105जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 कार्यकारी शाखा (विधि कैडर)-अगस्त 2007  
 सीमा चौधरी (06106ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 दिग्विजय दयानंदेव जाधव (06107बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सुभा सुरेश नायक (06108एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 कार्यकारी शाखा (नौसेना आयुध निरीक्षण कैडर) - अगस्त 2007  
 संदीप कुमार (06109एच), अस्थायी, 09 जुलाई 2007  
 मिथुन के थंकप्पन (06110के), अस्थायी, 09 जुलाई 2007  
 हरकमल सिंह चौहान (06111एन), अस्थायी, 23 जुलाई 2007  
 शिक्षा शाखा-अगस्त 2007  
 आशुतोष शुक्ला (70578बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सपना चिन्तामन लॉजेंबर (70580एच), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 श्वेता कपूर (70581के), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 पूर्वी कॅवर चौहान (70582एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 समेधा सदा नायक (70583आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सुरिन्दर सिंह (70585डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सीधी भर्ती योजना  
 अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)  
 नितिन नंदा (42793एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सोमवीर तक्षक (42794एच), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अभिषेक श्रीवास्तव (42795के), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विकास हुड्डा (42796एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विनोद कुमार (42798टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 वैधुत शाखा (सामान्य सेवा)  
 प्रतीक शर्मा (52306ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 निलुतपल चॉंगमै (52307बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अभिषेक तोमर (52304वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 बेनीराम सिंह खुरेजाम (52305जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विक्रान्त भौसाहेब गायकवाड (52306ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 निरल प्रिराम मंडु (52307बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सुरकुटे संदीप कुमार सुधाकर (52308एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अभियांत्रिक शाखा (पनडुब्बी कैडर)  
 वी एल भरत (42786आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 वैधुत शाखा (पनडुब्बी कैडर)  
 मनप्रीत सिंह (52301आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प शाखा)  
 तरूण (42814बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 शरदवाता गुप्ता (42787टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 शालिनी कुलोपिल्ली रजप्पन (42788डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 गौतम कुंदपुर (42789वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 प्रदीप हरिराजन मीना (42790जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 कुजहाली विद्या दुरैराज (42791ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 मीरा अन्द्रा (42792बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना  
 अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)  
 हरदीप सिंह राना (42799डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सजीव ससिनधरन (42800वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007

अभिषेक अहुजा (42801जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 कार्तिक भाके (42802ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 प्रद्युम्न शर्मा (42803बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विजय शंकर गनेश (42804एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 तुसार रानाडे (42806के), अस्थायी, 11 अगस्त 2007  
 कृपेष् झा (42807एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अनुरूप किलीयोट (42808आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 जसदीप सिंह साहनी (42809टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 राघवेन्द्र कोनागुरू (42811वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 जिथीन जयाचंद्रन (42812जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 रोहित जुयल (42813ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)  
 अनुपराज मेडिल देवराजन (52309एच), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 प्रताप सिंह शेखावत (52310के), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अंसुल गुप्ता (52311एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 थोमस मैथ्यू जॉन (52312आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 आशीष कुमार त्रिपाठी (52313टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 दीपक शर्मा (52314डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 सचिन गुप्ता (52315वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 देवेंदर फोगट (52316जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 प्रशांत पवन (52318बी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 शिवम श्रीवास्तव (52319एफ), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अनिरबन घोष (52320एच), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 विवेक शर्मा (52321के), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 गिरीश एम (52322एन), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 समीर चौधरी (52323आर), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 लोवकेश कुमार (52324टी), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 अनिरबन मुखर्जी (52325डब्ल्यू), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 निलेश गुप्ता (52326वाई), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 यतीश चतुर्वेदी (52327जेड), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 रेपसोल राज (52328ए), अस्थायी, 06 अगस्त 2007  
 राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1506/डीईएस/अनु-I/03, दिनांक 27 अगस्त 2008, एमएफ/1401/डीईएस/अनु-II/03, दिनांक 21 जनवरी 2008 एवं एमएफ/1822/डीईएस/अनु-IV/03,

दिनांक 25 अगस्त 2008 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा), शिक्षा शाखा एवं अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-जनवरी/फरवरी 2006 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

सब-लेफ्टि के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म व कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा)-जनवरी 2006

अंशुमान बेहरा (05802के), अस्थायी, 09 जनवरी 2006

शिक्षा शाखा - फरवरी 2006

योगेश त्यागी (70557एफ), स्थायी, 06 फरवरी 2006

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-फरवरी 2006

विकाश (42669जेड), अस्थायी, 06 फरवरी 2006

राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1401/डीईएस/अनु-II/03, दिनांक 25 अगस्त 2008 एवं एमएफ/1822/डीईएस/अनु-IV/03, दिनांक 29 अगस्त 2008 के अधीन भारतीय नौसेना की शिक्षा शाखा, वैद्युत शाखा (पनडुब्बी शाखा) एवं अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प शाखा)-जुलाई/अगस्त 2006 में सीधी भर्ती योजना/विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

सब-लेफ्टि के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म व कमीशन की तिथि

शिक्षा शाखा - अगस्त 2006

दिपांकर अधिकारी (70567बी), अस्थायी, 07 अगस्त 2006

वैद्युत शाखा (पनडुब्बी कैडर)-अगस्त 2006

ओम शंकर पांडे (52223एन), अस्थायी, 22 अगस्त 2006

अभियांत्रिक शाखा (नौसेना पोतशिल्प कैडर)-अगस्त 2006

निर्मल पी (42700डब्ल्यू), अस्थायी, 07 अगस्त 2006

राष्ट्रपति, द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एमएफ/1822/डीईएस/अनु-IV/03, दिनांक 30 मई 2007 के अधीन भारतीय नौसेना की वैद्युत शाखा, (सामान्य सेवा) एवं वैद्युत शाखा (पनडुब्बी शाखा)-जनवरी/फरवरी 2005 में सीधी भर्ती योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं:--

सब-लेफ्टि के रैंक में परखाधीन

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म व कमीशन की तिथि

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा) - फरवरी 2005

दीपेन्द्र सिंह (52066एफ), अस्थायी, 07 फरवरी 2005

वैधुत शाखा (पनडुब्बी कैंडर)-फरवरी 2005

सचिन बंसल (52085जैड), अस्थायी, 17 फरवरी 2005

राजेश राजागोपालन  
कमांडर  
जेडीएमपीआर  
(ओआई एंड आर)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 379, दिनांक 27 जुलाई 2011--निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 5,400/- ग्रेड पे रुपए के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (गुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

पिन संख्या, नाम, स्थापना/प्रयोगशाला तथा नियुक्ति की तिथि

2009एबी1008 चन्द्रशेखर सिंह, एडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009  
2009एबी1087 योगेश कुमार दिवांग, एडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009  
2008एबी1027 शचीन्द्र, एडीआरडीई, आगरा, 21 मई 2008  
2009एबी1250 अश्विनी कौशल, एडीआरडीई, आगरा, 03 जून 2009  
2009एबी1300 के एम शर्मा, एआरडीई, पुणे, 06 जुलाई 2009  
2009एबी1607 राकेश कुमार, एएसएल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009  
2010एबी1017 ईश्वर राव सुंदुपाली, एएसएल, हैदराबाद, 19 मई 2010  
2010एबी1307 जी मुरली, एएसएल, हैदराबाद, 23 मई 2007  
2010एबी1192 विक्रम सिंह परिहार, अनुराग, हैदराबाद, 18 नवम्बर 2010  
2009एबी1572 सतीश मैना मुपीडी, अनुराग, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009  
2008एबी1044 दानाबाबु सी, अनुराग, हैदराबाद, 21 मई 2008  
2009एबी1405 कुमार कौशिक, सीएफईईएस, दिल्ली, 03 जून 2009  
2009एबी1356 अश्विनी कुमार गुप्ता, सीएफईईएस, दिल्ली, 03 जून 2009  
2007एबी1010 टी ए खान, सीएफईईएस, दिल्ली, 23 मई 2007  
2008एबी1408 वी रवि प्रसाद, सीवीआरडीई, चैन्नई, 21 मई 2008  
2009एबी1476 एस सुगुमार, सीवीआरडीई, चैन्नई, 27 अप्रैल 2009  
2009एबी1490 मनोहर टी के, सीवीआरडीई, चैन्नई, 25 अगस्त 2009  
2008एबी1619 धर्मेन्द्र कुमार, डील, देहरादून, 08 दिसम्बर 2008  
2009एबी1020 विकास यादव, डील, देहरादून, 05 जून 2009

2008एबी1573 पंकज कुमार, डीबेल, बेंगलुरु, 03 दिसम्बर 2008

2008एबी1257 राजकुमार सुकुमारण, डीबेल, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2010एबी1246 के पाल सिंह, डीआईबीईआर, हलद्वानी, 24 मई 2010

2008एबी1501 डा. सुश्री अनुजा कुमारी, डीआईबीईआर, हलद्वानी, 08 फरवरी 2008

2009एबी1175 अजय चतुर्वेदी, डीआरडीई, ग्लालियर, 03 जून 2009

2010एबी1127 ललित कुमार, डीएलआरएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1637 एम कृष्णा प्रसाद, डीएलआरएल, हैदराबाद, 22 अगस्त 2008

2008एबी1302 बी श्रवण नायक, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2007एबी1320 जाडु सुधाकर, डीएलआरएल, हैदराबाद, 23 मई 2007

2010एबी1076 सागनिक विश्वास, डीएलआरएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1491 प्रभार के, डीएसआरएल, हैदराबाद, 21 फरवरी 2008

2009एबी1254 धीरेंद्र साहु, डीएमआरएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1461 अनु अन्ना अब्राहम, डीएमएसआरडीई, कानपुर, 11 जून 2009

2010एबी1055 सी श्रवंधी, डीआरडीएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2009एबी1251 अनिल कुमार जयसवाल, डीआरडीएल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2008एबी1375 मनीष सी खारे, डीआरडीएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1557 मोहम्मद इकरम, डीआरडीएल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2010एबी1249 प्रतीक बंसल, डीटीआरएल, दिल्ली, 10 नवम्बर 2010

2008एबी1648 के अजातशत्रु, जीटीआरई, बेंगलुरु, 03 दिसम्बर 2008

2009एबी1528 पी कीरूबाकरण, जीटीआरई, बेंगलुरु, 01 दिसम्बर 2009

2007एबी1060 संजु कुमार, जीटीआरई, बेंगलुरु, 16 अगस्त 2007

2009एबी1400 बिजोय टी, एचईएमआरएल, पुणे, 03 जून 2009

2008एबी1651 आशुतोष ओमप्रकाश शर्मा, एचईएमआरएल, पुणे, 31 अक्टूबर 2008

2009एबी1404 जितेन्द्र सिंह, एचईएमआरएल, पुणे, 03 जून 2009

2010एबी1220 अमित कुमार हैप्पी, एचईएमआरएल, पुणे, 26 नवम्बर 2009

2010एबी1071 संदीप बिष्ट, आईआरडीई, देहरादून, 19 मई 2010

2009एबी1680 अभिषेक, आईआरडीई, देहरादून, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1241 कुमारी पूजा, आईआरडीई, देहरादून, 03 जून 2009

2009एबी1050 एम माहाजाबिन, आईटीआर, बालासौर, 03 जून 2009

2008एबी1161 गगनदीप, लेस्टेक, दिल्ली, 21 मई 2008

2008एबी1593 बी दास, एलआरडीई, बेंगलुरु, 03 दिसम्बर 2008

2008एबी1175 अनंत राउत, एलआरडीई, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2008एबी1178 रविन्द्रनाथ टी, एलआरडीई, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2008एबी1177 एम शिवाशंकर, एलआरडीई, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2009एबी1006 आर अविनाश, एलआरडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2009एबी1098 पीटर जोसफ बी मोरिस, एलआरडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2009एबी1200 राहुल अग्रवाल, एलआरडीई, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2010एबी1132 वरुण पी, एमटीआरडीसी, बेंगलुरु, 19 मई 2010

2010एबी1254 विश्वास जयरामा, एनएमआरएल, अंबरनाथ, 23 नवम्बर 2010

2009एबी1377 कृष्णकांत सरकार, एमआरएल, अंबरनाथ, 03 जून 2009

2009एबी1358 जी के पाली, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 03 जून 2009

2008एबी1223 एम नागेश्वर राव, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 21 मई 2008

2009एबी1054 नवज्योति शर्मा, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 03 जून 2009

2009एबी1269 यू अरवन कुमार, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 22 जून 2009

2009एबी1142 प्रेम कुमार साहनी, पीएक्सई, बालासौर, 03 जून 2009

2010एबी1066 खान्सा सी ए, आरसीआई, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1303 मोहम्मद जुनैद अंसारी, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1043 के साधुखान, आरसीआई, हैदराबाद, 08 जून 2009

2008एबी1610 आर श्रीकांत पुत्साला, आरसीआई, हैदराबाद, 03 दिसम्बर 2008

2010एबी1157 बीभु सत्यम, आरसीआई, हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1276 मोहम्मद इस्माइल, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1406 जयसन सी, आरसीएमए(ए), पुणे, 03 जून 2009

2009एबी1591 रवि तिवारी, आर एंड डीई(ई), पुणे, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1608 श्याम किशोर, एसएफसी, जगदलपुर, 01 दिसम्बर 2009

2008एबी1156 गौरव प्रताप, एसएसपीएल, दिल्ली, 21 मई 2008

2009एबी1431 रेखा वर्मा, एसएसपीएल, दिल्ली, 03 जून 2009

वी पी पांडे  
सह-निदेशक (कार्मिक)

-----  
वायु शाखा

सं. 380, दिनांक 27 जुलाई 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय, वासेआ 59/98 के उपबंधों के तहत अधोलिखित फ्लाइंट कैडेटों को भा वा से की उड़ान (नौचालन) शाखा में फ्ला अफसर के रैंक पर 27 जून 2009 से स्थाई कमीशन एवं ब्रेवेट्स (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं। ये अफसर पीसी एवं ब्रेवेट्स (परिवीक्षा पर) प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 27 जून 2009 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नौचालन) शाखा

पूर्व-फ्लाइंट कैडेट से फ्लाइंग अफसर के रैंक पर

फ्ला अफसर राहुल सिंह (30420), सुशील कुमार संधू (30427), आचू कुञ्जियेथ (30453), 27 जून 2009 से प्रभावी

माननीय राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा सा मु/एस 24745/4/पीपी(ओ)/बीएम-IV दिनांक 14 जून 2007 के उपबंधों के तहत अधोलिखित अफसरों को भा वा से की उड़ान (नौचालन) शाखा में फ्ला अफसर के रैंक पर 27 जून 2009 से अस्थाई अल्प सेवा कमीशन (पीएसएससी) एवं ब्रेवेट्स प्रदान करते हैं। ये अफसर पीएसएससी एवं ब्रेवेट्स प्रदान किए जाने की तारीख अर्थात् 27 जून 2009 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे:--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (नौचालन) शाखा

पूर्व-फ्ला कैडेट से फ्लाइंग अफसर के रैंक पर

फ्ला अफसर विकुल कुमार राठी (30515), 27 जून 2009 से प्रभावी

फ्ला अफसर अक्षय मान सिंह (30508), अंशुल अग्रवाल (30509), अमन मेहता (30512)--27 जून 2009 से प्रभावी

राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पीसी-1/184/डीएस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत अधोलिखित अफसरों को फ्ला अफसर के रैंक में अस्थाई अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा :--

## भारतीय वायु सेना

## वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्ला अफसर अनुज चोपड़ा (30618), गुरजीत सिंह (30619), ओमकार प्रवीण देसाई (30620), किशोर कुमार हिरवानी (30621), अंकुर यादव (30622)--13 जुलाई 2009 से प्रभावी

## वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिकी)

फ्ला अफसर कृष्णन नंबूद्री वी (30570), अभिषेक कुमार सिंह (30623), हिमांशु हेमराजनी (30624), गौरव चौधरी (30625), जसवंत कुमार पझानीस्वामी (30626), अंकित गुप्ता (30627), अनिल शर्मा (30628), किशोर ठकराल (30629), रमेश कुमार कृष्णसामी (30630), मोहित कुमार बहल (30631), राहुल वीरावल्ली (30633), अनुभव सिन्हा (30635), नचिकेता भरोनिया (30636), जितिन खुराना (30637), रोहित चौहान (30638)--13 जुलाई 2009 से प्रभावी

फ्ला अफसर सौभद्र कुमार गुप्ता (30686), 17 जुलाई 2009 से प्रभावी

## वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्ला अफसर स्वाति हतवाल (30639), सोनिका कुमारी (30640)--13 जुलाई 2009 से प्रभावी।

## वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

फ्ला अफसर निलोफर खान (30642), तरंग आर्या (30643), अमनप्रीत कौर सहगल (30644), बीना पाण्डे (30645), राजश्री अभिरमन (30646), ज्योति चौहान (30647), प्रियंका करवासरा (30649), मीनाक्षी कुमारी (30650), मेधा गुप्ता (30651), उपासना सोहलोत (30652), सोनिका (30653), आरती सिंह (30654), प्रनीता रैना (30655), प्रियंका जोशी (30656), जी शारदा (30657), मनीषा त्यागी (30658), रोज़लिन के एम जोसफ (30659), दीप्ति काला (30660), सुविधा गुप्ता (30661), संजीवनी विट्ठलराव मोहिते (30662), सुरूचि गोयल (30663), ध्रुविका राज (30664), नेहा गौतम (30665), अदीति सिसोदिया (30666), मीनाक्षी श्रीवास्तव (30667), शिवांगी (30668), सरनजोत कौर (30669), तृप्ति वर्मा (30670), मेहा गौतम (30672), अनुप्रिया निगम (30673), जेमिनी (30674), ममता डी (30675), कृति दीक्षित (30676), गायत्री वी (30677), सुमेधा चोपड़ा (30678), रैनी शर्मा (30679)--13 जुलाई 2009 से प्रभावी

फ्ला अफसर संगीता नायर (30685), 14 जुलाई 2009 से प्रभावी।

राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. वा से मु/24745/4/पी पी (ओ)/पीसी-1/184/डीएस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 2001 के उपबंधों के तहत अधोलिखित अफसरों को फ्लाईंग अफसर के रैंक में प्रदान किए गए परन्तु अल्प सेवा कमीशन को समाप्त कर उन्हें अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा) प्रदान करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से प्रभावी होगा :--

## भारतीय वायुसेना

## वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्ला अफसर अनुज चोपड़ा (30618), गुरजीत सिंह (30619), ओमकार प्रवीण देसाई (30620), किशोर कुमार हिरवानी (30621), अंकुर यादव (30622)--02 जुलाई 2010 से प्रभावी।

## वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)

फ्ला अफसर कृष्णन नंबूद्री वी (30570), अभिषेक कुमार सिंह (30623), हिमांशु हेमराजनी (30624), गौरव चौधरी (30625), जसवंत कुमार पझानीस्वामी (30626), अंकित गुप्ता (30627), अनिल शर्मा (30628), किशोर ठकराल (30629), रमेश कुमार कृष्णसामी (30630), मोहित कुमार बहल (30631), राहुल वीरावल्ली (30633), अनुभव सिन्हा (30635), नचिकेता भरोनिया (30636), जितिन खुराना (30637), रोहित चौहान (30638), फ्ला. अफ. सौभद्र कुमार गुप्ता (30686)--02 जुलाई 2010 से प्रभावी।

## वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)

फ्ला अफसर स्वाति हतवाल (30639), सोनिका कुमारी (30640)--02 जुलाई 2010 से प्रभावी।

## वैमानिक इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिकी)

फ्ला अफसर निलोफर खान (30642), तरंग आर्या (30643), अमनप्रीत कौर सहगल (30644), बीना पाण्डे (30645), राजश्री अभिरमन (30646), ज्योति चौहान (30647), प्रियंका करवासरा (30649), मीनाक्षी कुमारी (30650), मेधा गुप्ता (30651), उपासना सोहलोत (30652), सोनिका (30653), आरती सिंह (30654), प्रणीता रैना (30655), प्रियंका जोशी (30656), जी शारदा (30657), मनीषा त्यागी (30658), रोज़लिन के एम जोसफ (30659), दीप्ति काला (30660), सुविधा गुप्ता (30661), संजीवन विट्ठलराव मोहिते (30662), सुरूचि गोयल (30663), ध्रुविका राज (30664), नेहा गौतम (30665), अदीति सिसोदिया (30666), मीनाक्षी श्रीवास्तव (30667), शिवांगी (30668), सरनजोत कौर (30669), तृप्ति वर्मा (30670), मेहा गौतम (30672), अनुप्रिया निगम (30673), जेमिनी (30674), ममता डी (30675), कृति दीक्षित (30676), गायत्री वी (30677), सुमेधा चोपड़ा (30678), रैनी शर्मा (30679), फ्ला. अफ संगीता नायर (30685)--02 जुलाई 2010 से प्रभावी।

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

सं. 381, दिनांक 28 जुलाई 2011--माननीय राष्ट्रपति महोदय, स्थायी कमीशन प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसरों की सेवा को स्थायी करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा :--

## भारतीय वायु सेना

## उड़ान (मार्गनिर्देशक) शाखा

फ्ला अफसर ए एम एस साम्बयाल (30508), एफ (एन)

फ्ला अफसर अंशुल अग्रवाल (30509), एफ (एन)

फ्ला अफसर अमर मेहता (30512), एफ (एन)

फ्ला अफसर राहुल सिंह (30420), एफ (एन)

फ्ला अफसर सुशील कुमार (30427), एफ (एन)



फ्ला अफसर अचु कुझिमेठ (30453), एफ (एन)

--27 जून 2009 से प्रभावी--

उड़ान (मार्गनिर्देशक) शाखा

फ्ला अफसर ए पी यादव (30174), 20 दिसम्बर 2008 से प्रभावी

माननीय राष्ट्रपति महोदय, अल्प सेवा कमीशन प्रदान किए गए निम्नलिखित अफसरों की सेवा की पुष्टि करते हैं, जो उनके नामों के आगे लिखी तारीख से प्रभावी होगा :--

भारतीय वायु सेना

पूर्व फ्लाइट कैंडेडेटों से फ्ला अफसरों के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्ला अफसर मनोज रावत (30517), कृष्ण गोपाल सिंह शक्तावत (30518), सौरभ पुनिया (30519), अंकित सक्सेना (30520)--  
27 जून 2009 से प्रभावी।

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैंडेडेटों से फ्ला अफसरों के रैंक पर

फ्ला अफसर पूर्णिमा पी रानाडे (30521), दिव्य ज्योति (30522)--  
27 जून 2009 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्ला अफसर बोसेट्टी श्रीनिवासुलु वेंकट राव (30486), 27 जून 2009 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्ला अफसर अनिल कुमार शुक्ला (30487), 27 जून 2009 से प्रभावी।

मौसम विज्ञान शाखा

फ्ला अफसर संपूरन सिंह नेगी (30488), 27 जून 2009 से प्रभावी।

तरुण खरे

विंग कमांडर

संयुक्त निदेशक

कार्मिक अफसर-3(डी)

-----

थल सेना शाखा

सं. 382, दिनांक 28 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

एयर कमांडर से एयर वाइस मार्शल (व समकक्ष) के पद पर

बी के राव (एमआर-03580एल) (एएफ-14450एफ), 09 जुलाई 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2009 से दी जाती है।

ब्रिगे (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

आर चौधरी (एमआर-03691एच), 18 दिसम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 20 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगे (व समकक्ष) के पद पर

वी के सिन्हा (एमआर-04598एन), 15 सितम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 अगस्त 2010 से दी जाती है।

एस राजगोपालन (एमआर-04269एक्स), 01 अक्टूबर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

ए बी खरे (एमआर-04272एक्स), 25 अक्टूबर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

जगतार सिंह (एमआर-04276एन), 29 अक्टूबर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है।

आर एस सैनी (एमआर-06121एक्स), 17 दिसम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है।

एम आर पंत (एमआर-04801वाई), 16 दिसम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 28 अक्टूबर 2010 से दी जाती है।

जे के बनर्जी (एमआर-04676ए), 21 दिसम्बर 2010 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 29 अक्टूबर 2010 से दी जाती है।

कर्नल (व समकक्ष) से ब्रिगे (व समकक्ष) के पद पर

सी एस नारायण (एमआर-04173पी), 01 दिसम्बर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 12 अक्टूबर 2009 से दी जाती है।

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

ले कर्नल के के दास (एमआर-5191के), 19 दिसम्बर 2009

ले कर्नल नीलम छबरा (एमआर-5297डब्ल्यू), 03 दिसम्बर 2010

ले कर्नल सरविन्दर सिंह (एमआर-6100एफ), 06 फरवरी 2011

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

विंग कमांडर मुकुंद जोशी (एमआर-5399एम) (एएफ-18382एएस),  
20 दिसम्बर 2010

विंग कमांडर के नारायण (एमआर-6120पी) (एएफ-18849एएस),  
21 मार्च 2011

मेजर के पद पर

जिंदमवार प्रशांत धर्मना (एमएस-15139पी) (एमआर-09130के),  
एमएससी, 16 दिसम्बर 2009

आशीष चद्रा (एमआर-08806पी), एएमसी, 12 अप्रैल 2009

अरुणावा मुखर्जी (एमएस-15327 डब्ल्यू) (एमआर-09131एम),  
एएमसी, 22 सितम्बर 2010

मकवाण सौरभभाई कान्तिभाई (एमएस-15363एफ)  
(एमआर-09140एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

नेहा गर्ग (एमएस-15329एफ) (एमआर-09144के), एएमसी,  
22 सितम्बर 2010

शैलजा चौधरी (एमएस-15151डब्ल्यू) (एमआर-09157एफ),  
एएमसी, 16 दिसम्बर 2009

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा  
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया  
जाता है]

#### कप्तान के पद पर

मोहन शर्मा (एमएस-15532एक्स) (एमआर-09155डब्ल्यू), एएमसी,  
06 फरवरी 2008

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 28 अगस्त 2010 में प्रकाशित रक्षा  
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया  
जाता है]

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

-----

#### सेना शाखा

सं. 383, दिनांक 28 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

ले से कप्तान

आई.सी. नं., नाम और आर्म्

(आईसी-72802) प्रवीन कुमार, आर्टी

(आईसी-72803) जुमडे अभिषेक दिगंबरराव, मैक

(आईसी-72805) अनिल कुमार सलगोत्रा, इंफैंट्री

(आईसी-72806) जिज्ञासु पुरी, आर्टी

(आईसी-72807) अनिल कुमार, एएससी

(आईसी-72808) अभिक दत्ता, इंफैंट्री

(आईसी-72809) सचिन संभाजी देशमुख, इंफैंट्री

(आईसी-72812) सिंह नेगी महेंद्र दिवान, आर्टी

(आईसी-72813) विवेक कुमार जसवाल, इंफैंट्री

(आईसी-72816) दुष्यंत सिंह शेखावत, इंफैंट्री

(आईसी-72818) राहुल तनवर, एएससी

(आईसी-72819) सतीश कुमार सिंह, आर्टी

(आईसी-72821) सुमन कुमार सिन्हा, एएडी

(आईसी-72822) भस्कार लिम्बू, इंफैंट्री

(आईसी-72823) शिव शंकर दीप एस, इंफैंट्री

(आईसी-72824) मौसम कुमार, आर्टी

(आईसी-72825) प्रितिकान्त मोहापात्र, एएडी

(आईसी-72827) राकेश कुमार ढण्डपत, एएडी

(आईसी-72828) शरद हैनरी जोसफ, आर्टी

(आईसी-72829) तेज प्रताप सिंह, इंफैंट्री

(आईसी-72830) नीरज गुप्ता, आर्टी

(आईसी-72831) अनुराग सिंह, आर्टी

(आईसी-72832) सुशील कुमार चौधरी, आर्टी

(आईसी-72835) जाधव मंदार चंद्रकांत, इंफैंट्री

(आईसी-72838) विकास चौहान, इंफैंट्री

(आईसी-72840) रोहित गुलेरीया, इंफैंट्री

(आईसी-72842) गिरीश कुमार शर्मा, इंफैंट्री

(आईसी-72843) विकास शर्मा, इंफैंट्री

(आईसी-72844) जयदीप, आर्टी

(आईसी-72845) गुरइकबाल सिंह, आर्टी

(आईसी-72846) ऑंकार जोशी, एसी

(आईसी-72847) एम पी अय्यप्पा, एसी

(आईसी-72848) हर्षा कुमार, इंफैंट्री

(आईसी-72849) रनदीप सिंह बीका, इंफैंट्री

(आईसी-72850) विनय कुमार पान्डेय, इंफैंट्री

(आईसी-72851) राकेश कुमार सिंह, आर्टी

(आईसी-72852) प्रतीक मलिक, एसी

(आईसी-72854) अभिषेक राठी, इंफैंट्री

(आईसी-72855) हाउरोकचम खागेम्बा, इंफैंट्री

(आईसी-72856) अमित कुमार पाण्डे, इंफैंट्री

(आईसी-72857) नीरज तुली, आर्टी

(आईसी-72858) अमित कुमार यादव, आर्टी

(आईसी-72859) मनोज कुमार खाती, इंफैंट्री

(आईसी-72860) भारत भूषण, एएडी

(आईसी-72861) मुकुन्द वी, इंफैंट्री

- (आईसी-72863) रमनदीप मक्कड, आर्टी  
 (आईसी-72865) अभिनव कुमार, मैक इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72866) मुकेश कुमार के, आर्टी  
 (आईसी-72869) विक्की क्षेत्री, आर्टी  
 (आईसी-72872) हरिकेश प्रताप सिंह, एओसी  
 (आईसी-72873) गायकवाड शाम राव आनन्द, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72874) टी कृष्णा कुमार, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72875) अक्षय विजय पवार, एसी  
 (आईसी-72876) विकास कुण्डू, एएडी  
 (आईसी-72877) वनलालसांगा, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72879) अतुल देवली, आर्टी  
 (आईसी-72880) प्रदीप कुमार श्योकंद, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72881) वरूण वशिष्ठ, एएससी  
 (आईसी-72882) चिंगप्पा सी जी, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72883) दीपेश प्रकाश, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72884) गौरव सिंह, आर्टी  
 (आईसी-72885) विकास रैजादा, एओसी  
 (आईसी-72886) ब्रह्मदेव सिंह, एओसी  
 (आईसी-72888) कपिल पाठक, एएससी  
 (आईसी-72889) स्वागत शर्मा, एसी  
 (आईसी-72890) गजेन्द्र एस शेखावत, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72891) जोरावर सिंह जम्वाल, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72892) पंकज सिंह, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72893) रवि पंवार, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72894) गौरव मिश्रा, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72895) शरत अनिगोल, मैक  
 (आईसी-72896) अभिषेक सान्द्र, आर्टी  
 (आईसी-72897) पोलुमुरी राज कुमार, इंट  
 (आईसी-72898) सिद्धार्थ सिंह सम्बयाल, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72899) जगपाल सिंह, इंट  
 (आईसी-72900) प्रज्जवल दीक्षित, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72902) गुरप्रीत सिंह अरोरा, आर्टी  
 (आईसी-72906) अंकित मल्होत्रा, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72907) अश्विन पुण्डीर, एसी  
 (आईसी-72908) अमरीश दुबे, एओसी  
 (आईसी-72910) अब्राहम आनंद अरूणकुमार, आर्टी  
 (आईसी-72912) सरताज सिंह पन्नु, एओसी  
 (आईसी-72913) अजय यादव, एओसी  
 (आईसी-72914) गोपाल अरोड़ा, इंट  
 (आईसी-72917) आशीष सक्सेना, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72919) खाई सोममंग वाईफेई, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72920) राम चन्द्र, एओसी  
 (आईसी-72923) श्वेताभ सिंह, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72925) प्रशांत धवन, इंट  
 (आईसी-72927) मीर नदीम, आर्टी  
 (आईसी-72929) कृष्ण दयाल सिंह राठौर, आर्टी  
 (आईसी-72936) ए पी सी राजेश, आर्टी  
 (आईसी-72937) क्रिस्टो सुदीप डिसूजा, आर्टी  
 (आईसी-72940) अमिताभ घोषाल, एसी  
 (आईसी-72941) विजय कुमार, एएससी  
 (आईसी-72942) ध्रुवव्रत काकोटी, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72945) कुमार अनुराग सिंह, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72947) गौरव तिवारी, इंफैन्ट्री  
 (आईसी-72948) अनिरुद्ध आनन्द, मैक  
 (आईसी-72950) सैन ए नवीन, आर्टी  
 (आईसी-72953) जितेन्द्र सिंह, जेएजी

-----18 अक्टूबर 2008

प्रभात राँस  
 उप निदेशक  
 एम एस 8सी

थलसेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 384, दिनांक 29 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ईलेक्ट रैंक में

किशन सिंह (सं. 14621122एल अब जेसी-765804पी), 01 फरवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिक्वरी) के रैंक में

श्री राम प्रसाद (सं. 14583175एक्स अब जेसी-765719एम), 10 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 \*

अखीलेश्वर तिवारी (सं. 14581819एन अब जेसी-766104एन),  
25 अप्रैल 2011/06 अप्रैल 2011 \*

पलानीयासन एस (सं. 14586176एल अब जेसी-765882एम),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में  
अर सैथील कुमार (सं. 14620342एच अब जेसी-765664एन),  
23 फरवरी 2011/01 नवम्बर 2010 \*

ओमन बसुमत्री (सं. 14619441वाई अब जेसी-765184एन),  
08 मार्च 2011/01 अगस्त 2010 \*

एस अरोकिया सामी (सं. 14622667पी अब जेसी-765795वाई),  
01 मार्च 2011/01 फरवरी 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी)  
किशोर राय (सं. 14587715एच अब जेसी-765592पी), 03 मार्च  
2011/01 दिसम्बर 2010 \*

विजय कुमार सिंह (सं. 14590755पी अब जेसी-765952ए),  
11 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

श्री नारायण शर्मा (सं. 14587447के अब जेसी-765584डब्ल्यू),  
07 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में  
अमर मंडल (सं. 14613566ए अब जेसी-765931के), 11 मार्च  
2011/01 मार्च 2011 \*

रबीन्द्र शर्मा (सं. 14614026एन अब जेसी-766073वाई), 19 अप्रैल  
2011/05 मार्च 2011 \*

ललन पंडीत (सं. 14614109वाई अब जेसी-766081एक्स),  
23 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

असीम महलदर (सं. 14613827एच अब जेसी-765314एफ),  
15 अप्रैल 2011/09 मार्च 2011 \*

ललीत कुमार (सं. 14614134एक्स अब जेसी-766085एन),  
01 अप्रैल 2011

हरीश चंद्र कापरी (सं. 14614044डब्ल्यू अब जेसी-766074एफ),  
13 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

जसविन्दर सिंह (सं. 14614048एम अब जेसी-766083एच),  
1 अप्रैल 2011

राज कुमार (सं. 14614133पी अब जेसी-766084एल), 15 अप्रैल  
2011/01 अप्रैल 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में  
अभीलाश सिंह (सं. 14592352एन अब जेसी-765751एफ),  
01 मार्च 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

जाधव भास्कर शंकर (सं. 14601730एल अब जेसी-765898एक्स),  
03 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक नेट वर्किंग के रैंक में  
सुरेश कुमार के (सं. 14618879एच अब जेसी-766010डब्ल्यू),  
14 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में  
टी नीलकंदान (सं. 14626860वाई अब जेसी-766011वाई),  
15 अप्रैल 2011/19 दिसम्बर 2010 \*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में  
ज्ञान सिंह (सं. 14593775एन अब जेसी-765912वाई),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक व्हीकल के रैंक में  
जाधव सुदम गंगाधर (सं. 14624584एच अब जेसी-766001पी),  
18 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में  
चतूर राम (सं. 14587204वाई अब जेसी-765850के), 01 अप्रैल  
2011

हरेंद्र सिंह (सं. 14585995एच अब जेसी-765846एफ), 01 अप्रैल  
2011

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में  
अनिल कुमार (सं. 14613472एच अब जेसी-765864के),  
12 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में  
राम बाबू सिंह (सं. 14585953डब्ल्यू अब जेसी-765883पी),  
01 अप्रैल 2011

बीजया कुमार साहू (सं. 14585490एम अब जेसी-765870एक्स),  
19 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

हलवदिया कल्पेश कुमार हिदराज लाल (सं. 14586229वाई अब  
जेसी-765886एच), 01 अप्रैल 2011

रणवीर सिंह (सं. 14585955एफ अब जेसी-765884एक्स),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में  
भनवर लाल (सं. 14593221पी अब जेसी-765906एल),  
01 अप्रैल 2011

भनवर लाल (सं. 14596063डब्ल्यू अब जेसी-765918ए),  
01 अप्रैल 2011

कोडे ईरवरान (सं. 14593757एल अब जेसी-765910एन),  
01 अप्रैल 2011

राम प्रसाद (सं. 14593415एक्स अब जेसी-765629एल),  
01 फरवरी 2011

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी)

मदन सिंह (सं. 14590761एच अब जेसी-765950पी),  
07 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

हवलदार से नायब सुबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

शंकर दिव्य (सं. 14628652एच अब जेसी-766029पी),  
01 मार्च 2011

नागाराजु आर्धि (सं. 14630092ए अब जेसी-766041डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2011

पुशकर राम चनयाल (सं. 14626747के अब जेसी-766027के),  
01 अप्रैल 2011

अनीरुथ कुमार (सं. 14630287एल अब जेसी-766042वाई),  
01 अप्रैल 2011

चिन्नप्पैयान जी (सं. 14629662वाई अब जेसी-766037एन),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

जय कुमार (सं. 14629495एन अब जेसी-766012एफ),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सुबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

संजीव कुमार (सं. 14630209एन अब जेसी-766045एम),  
01 अप्रैल 2011

मुनेश कुमार मिश्रा (सं. 1462409एच अब जेसी-765226एल),  
19 मार्च 2011/01 सितम्बर 2010\*

हवलदार से नायब सुबेदार (एस के टी)

दीनेशन के वी (सं. 14614210वाई अब जेसी-766090वाई),  
09 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011\*

वाज़िर सिंह (सं. 14614154एल अब जेसी-766086डब्ल्यू),  
20 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011\*

प्रबोध कुमार प्रजापति (सं. 14614038एच अब जेसी-766060एफ),  
15 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक नेट वर्किंग के रैंक में

अवधेश कुमार सिंह (सं. 14618734एक्स अब जेसी-765986एन),  
16 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में  
कमल प्रसाद (सं. 14581259एम अब जेसी-766070एल),  
29 मार्च 2011/08 जनवरी 2011\*

हवलदार से नायब सुबेदार टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में  
अलोक कुमार मंडल (सं. 14590168के अब जेसी-765861डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2011

हवलदार से नायब सुबेदार मास्टर टेक बी वेहीकल के रैंक में  
विनय कुमार वर्मा (सं. 14622752एक्स अब जेसी-765994एम),  
14 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

बाबू राम (जेसी-763799डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011  
अनुप कुमार पलाई (जेसी-763806एफ), 15 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

महेश कुमार कमल हंस (जेसी-763807के), 13 अप्रैल 2011/01  
अप्रैल 2011\*

शींदे वसंत पंडीत राव (जेसी-763810के), 01 अप्रैल 2011

जौनसोन पी जे (जेसी-763805वाई), 13 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

रठोद जेथा भिखा (जेसी-763808एम), 13 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

अशोक कुमार (जेसी-763803एन), 01 अप्रैल 2011

सलुंखे काशीनाथ बी (जेसी-763611एम), 04 अप्रैल 2011/01  
अप्रैल 2011\*

भवीशन कुमार (जेसी-763797एल), 11 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

प्रमोद कुमार (जेसी-763801एच), 05 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011\*

दासरी स्वानाधम (जेसी-763813एक्स), 02 अप्रैल 2011/01 अप्रैल  
2011\*

सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

मोहम्मद याकूब अली (जेसी-762692पी), 21 अप्रैल 2011/01  
अप्रैल 2011\*

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

अनील कुमार मंडल (जेसी-762615ए), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार अटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

रणधीर सिंह (जेसी-763478वाई), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

नरेंद्र सिंह यादव (जेसी-759881एन), 01 अप्रैल 2011

राजेश कुमार (जेसी-759849वाई), 01 अप्रैल 2011

राम निवास गुजर (जेसी-759883वाई), 01 अप्रैल 2011  
श्रीनिवास महाराणा (जेसी-759728एक्स), 23 मार्च 2011/01 अप्रैल 2011 \*

वेद प्रकाश (जेसी-759857एक्स), 01 अप्रैल 2011  
बीरबर पात्रा (जेसी-759845एल), 02 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*  
जितेंद्र कुमार सिंह (जेसी-759852वाई), 02 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

देवेंद्र कुमार सिंह (जेसी-759847एच), 01 अप्रैल 2011  
नरेश कुमार (जेसी-759856पी), 01 अप्रैल 2011  
कुलबीर सिंह (जेसी-769843एक्स), 01 अप्रैल 2011  
सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में  
ऋशिकेश मंहता (जेसी-759975एल), 01 अप्रैल 2011  
शिव कुमार सिंह (जेसी-759812एक्स), 01 अप्रैल 2011  
सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में  
अनंद बल्लभ जोशी (जेसी-759971पी), 11 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में  
अश्वनी कुमार सिंह चौहान (जेसी-760919वाई), 01 अप्रैल 2011  
सत्यपाल (जेसी-760910के), 01 अप्रैल 2011  
राम सुहावन गर्ग (जेसी-760911एम), 01 अप्रैल 2011  
चंद्र भुशण सिंह (जेसी-760914ए), 04 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

सूबेदार टेक ए वी एन (ए ई) के रैंक में  
सुब्रता सरकार (जेसी-761007एम), 11 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*  
सूबेदार टेक ए वी एन इलेक्ट के रैंक में  
कमल किशोर शर्मा (जेसी-763149एच), 08 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाता है।

सूबेदार सुपोर्त स्तफ के रैंक में  
कुलदीप सिंह (जेसी-762684डब्ल्यू), 01 मई 2011  
प्रभाकरन नायर बी (जेसी-761667एक्स), 01 मई 2011  
सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में  
सुबल कुमार गिरी (जेसी-762766वाई), 01 मई 2011/01 अप्रैल 2011 \*

विनय कुमार (जेसी-762605डब्ल्यू), 21 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011 \*

केशव प्रसाद पाल (जेसी-762622डब्ल्यू), 02 मई 2011/01 मई 2011 \*  
दयाराम दगदु मनकार (जेसी-762616एच), 01 मई 2011/01 अप्रैल 2011 \*

किशोरी लाल (जेसी-763138डब्ल्यू), 01 मई 2011  
डी के भक्ता (जेसी-762618एन), 02 मई 2011/01 मई 2011 \*  
किशोरी लाल (जेसी-762770एफ), 01 मई 2011  
बयिलश चेन्नय्या (जेसी-762617एल), 01 अप्रैल 2011  
सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में  
दशरथ लाल (जेसी-759898एफ), 08 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*  
सूबेदार (एस के टी) के रैंक में  
मुरली राम (जेसी-763798), 22 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*  
पावर किशन दतत्रया (जेसी-764275एफ), 10 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*  
विनोद कुमार सिंह (जेसी-763901एन), 21 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में  
मौनुअल जोसेफ (जेसी-761314के), 06 मई 2011/01 मई 2011 \*  
गजभिये अन्ना खुशाल राव (जेसी-760977एच), 03 मई 2011/01 मई 2011 \*  
दिलनवाजा अक्रम (जेसी-760980एच), 01 मई 2011  
दया शंकर यादव (जेसी-761313एफ), 01 मई 2011  
सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में  
एम डी अयुब नोबी (जेसी-762508वाई), 01 मई 2011  
जादव कुमार भीमा राव (जेसी-762899पी), 03 मई 2011/01 मई 2011 \*  
मदन थेंग (जेसी-762896एफ), 19 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*  
गैकवाड नगनाथ ब्रह्मदेव (जेसी-762693एक्स), 25 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में  
राजेन्द्र वीलुंग (जेसी-762562एच), 09 मई 2011/01 मई 2011 \*  
सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में  
राकेश कुमार सिंह (जेसी-759632पी), 01 फरवरी 2011  
सुमन कुमार (जेसी-759863एल), 01 अप्रैल 2011  
दलेर सिंह (जेसी-759842पी), 13 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011 \*

## सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में

राजेन्द्र सिंह (जेसी-759807एम), 08 मार्च 2011/01 मार्च 2011 \*

## सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

कुतुबुद्दीन अहमद (जेसी-759512डब्ल्यू), 25 अप्रैल 2011/06 अप्रैल 2011 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

## सूबेदार आटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

अरुण प्रकाश राय (जेसी-763252एच), 04 नवम्बर 2011/05 सितम्बर 2010 \*

विनय कुमार सिंह (जेसी-763313ए), 01 नवम्बर 2010/22 जून 2010 \*

विजय सिंह पपोला (जेसी-763960ए), 09 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

## सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

राजीथ टी के (जेसी-759714एक्स), 01 दिसम्बर 2010

ओम प्रकाश सिंहे (जेसी-759537एच), 14 दिसम्बर 2010

प्रवीर कुमार साहा (जेसी-759608वाई), 01 दिसम्बर 2010

सुरेन्द्र कुमार (जेसी-759615पी), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

करनाल सिंह (जेसी-756768एच), 01 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

त्रिलोक सिंह (जेसी-756594वाई), 06 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

लल सहेब मिश्रा (जेसी-757226डब्ल्यू), 13 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

इन्ताज अली खान (जेसी-756593डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

सत्येन्द्र सिंह (जेसी-760770एच), 01 जनवरी 2011

## सूबेदार टेक कम्प्यूनिक्शन के रैंक में

राजबीर सिंह (जेसी-763880एच), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

सुसील चंद्र राय (जेसी-762487एन), 10 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 \*

राम अम्या तिवारी (जेसी-762499एच), 11 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

सुरेन्द्र राय (जेसी-762470ए), 01 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010 \*

आनंद गिरधर सिंह राणा (जेसी-762498ए), 08 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

## सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

दिगम्बर सिंह (जेसी-763136एल), 01 दिसम्बर 2010

बिकाशजीत डे (जेसी-763349वाई), 12 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

चंचल कुमार सिंह (जेसी-763259एक्स), 10 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

शीबू कुमार सिंह (जेसी-763347एन), 14 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

सुरेन्द्र सिंह (जेसी-763266एन), 13 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

सुधीर कुमार यादव (जेसी-763258पी), 01 जनवरी 2011

तपन कुमार दास (जेसी-763350एन), 16 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

## सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में

ध्रुव किशोर सिंह (जेसी-762224पी), 23 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

रमेश कुमार गुप्ता (जेसी-759619एल), 01 जनवरी 2011/01 दिसम्बर 2010 \*

## सूबेदार मशिनिस्ट के रैंक में

विस्वनाथ नंदा गवई (जेसी-761583डब्ल्यू), 12 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

विजय कुमार सिरौही (जेसी-761498एन), 01 दिसम्बर 2010

जागोश प्रसाद मिश्रा (जेसी-761497एल), 15 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 \*

## सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

चल्ला सी एच शेखर रेड्डी (जेसी-759644के), 21 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

## सूबेदार रदिओ के रैंक में

कुलदीप शर्मा (जेसी-759636एल), 07 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

सुशील कुमार पांडे (जेसी-759635एच), 01 जनवरी 2011

## सूबेदार आर्टिजन मेटलर्जी के रैंक में

महादेव वाडर (जेसी-761587एम), 12 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011 \*

## सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

सुखदेव मंडल (जेसी-759712एम), 01 जनवरी 2011

श्याम कुमार पी के (जेसी-759617ए), 28 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010 \*

## सूबेदार वेल्डर के रैंक में

रतन सिंह (जेसी-761488के), 01 दिसम्बर 2010

लखविन्दर सिंह (जेसी-761493पी), 01 दिसम्बर 2010

जय प्रकाश (जेसी-761492एम), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार मास्टर टेक इंजीनियर इक्यूपमेंट के रैंक में

विमलेंदु कुमार (जेसी-763740डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

अश्विन कुमार (जेसी-759689के), 01 दिसम्बर 2010

स्वदेश राय चौधरी (जेसी-759686डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

पीता बासु साहू (जेसी-759682ए), 30 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010\*

प्रफुल चन्द पाल (जेसी-759691एफ), 01 दिसम्बर 2010

## सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

बंशी दास (जेसी-761150वाई), 18 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011\*

धमंदे गजनन राम्सा (जेसी-760579एफ), 28 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक (जी सी ई) के रैंक में

हरदयाल सिंह (जेसी-759775पी), 01 सितम्बर 2010

## सूबेदार मास्टर ए वी एन टेक एवैनेक्स के रैंक में

रधुनाथ सिंह (जेसी-760970वाई), 16 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में

करक सिंह (जेसी-760957पी), 01 दिसम्बर 2010

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

## सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

अशोक कुमार (जेसी-759662एम), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010\*

## सूबेदार टेक ए वी एफ (ए वी एन) के रैंक में

कमलेश कुमार चौबे (जेसी-760966डब्ल्यू), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010\*

## सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

राम बिचार दूबे (जेसी-761500ए), 26 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010\*

## सूबेदार वेल्डर के रैंक में

प्रहल्लाद मिश्रा (जेसी-761586के), 01 मार्च 2011

श्री श्रीकुमार स्वैन (जेसी-761634वाई), 01 मार्च 2011

## सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

सीसोदिया दलजीत सिंहा एस (जेसी-759633एक्स), 01 जनवरी 2011

## सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सुनील कुमार मिश्रा (जेसी-759821वाई), 01 जनवरी 2011

राधे कृष्णा वी (जेसी-759825पी), 01 फरवरी 2011

वी रुद्रया (जेसी-759830ए), 07 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

## सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

बशीरत दुबे (जेसी-759647एक्स), 01 फरवरी 2011

## सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

विनोद कुमार पथ्यय (जेसी-763598एक्स), 02 मार्च 2010/01 मार्च 2010\*

राम पाल सिंह (जेसी-763794एक्स), 01 मार्च 2011

उत्तम कुमार डेय (जेसी-763470एम), 01 फरवरी 2011

## सूबेदार मास्टर टेक ए वी एफ (ए वी एन) के रैंक में

सुखबीर सिंह (जेसी-761010एम), 01 फरवरी 2011

## सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

अरूमूगाम एम (जेसी-759826एक्स), 03 मार्च 2011/01 फरवरी 2011\*

रवीन्द्र नाथ दास (जेसी-759861ए), 01 अप्रैल 2011

सतीश कुमार (जेसी-759859एच), 01 अप्रैल 2011

राज कुमार (जेसी-759834डब्ल्यू), 08 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

किशन लाल यादव (जेसी-759840के), 01 अप्रैल 2011/01 मार्च 2011\*

जयवीर सिंह (जेसी-759860एक्स), 01 अप्रैल 2011

हरी किशन (जेसी-759837के), 07 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

## सूबेदार सुप्पोर्तर्ड स्टाफ के रैंक में

सुखवीन्दर सिंह (जेसी-762115एच), 01 मार्च 2011

## सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नरेन्द्र सिंह (जेसी-763599ए), 23 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*

जी महालीगम (जेसी-763590एल), 07 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011\*

## सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

महेश प्रसाद (जेसी-762612एम), 01 अप्रैल 2011

## सूबेदार एसी आरएफ के रैंक में

संजय कुमार (जेसी-762094एक्स), 01 अप्रैल 2011



सूबेदार आटो टेक बी व्हीकल के रैंक में  
 गोकूल चंद दास (जेसी-763718एल), 01 अप्रैल 2011  
 सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में  
 नीरंजन दास (जेसी-760915एच), 01 अप्रैल 2011  
 राजकुमार (जेसी-760912पी), 01 अप्रैल 2011  
 भीम सिंह (जेसी-760918डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2011  
 सूबेदार मास्टर टेक कम्यूत्रिकेशन के रैंक में  
 प्रेम चंद शर्मा (जेसी-759972एक्स), 01 अप्रैल 2011  
 अल्मेदा देविड मानवेल (जेसी-759810एम), 01 अप्रैल 2011  
 उदय नाथ लेंका (जेसी-759974एच), 01 अप्रैल 2011  
 सुनील कुमार सिंह (जेसी-757410एफ), 23 मार्च 2011/07 दिसम्बर 2010\*  
 धर्मवीर सिंह (जेसी-759813ए), 01 अप्रैल 2011  
 सूबेदार टेक एसए के रैंक में  
 मोरे माधव तुकाराम (जेसी-762690के), 06 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*  
 बिस्वाजीत दास (जेसी-762689पी), 01 मार्च 2011  
 सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में  
 धर्म सिंह (जेसी-759870एफ), 11 मार्च 2011/01 मार्च 2011\*  
 \*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

एन के कश्मीरा  
 अवर सचिव

-----  
 वायु शाखा

सं. 385, दिनांक 29 जुलाई 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

(उड़न शाखा)

एयर मार्शल के मूल रैंक में

एयर मार्शल पी आर शर्मा (13927), उड़न, 01 अप्रैल 2011

एयर वाइस मार्शल के मूल रैंक में

एयर वाइस मार्शल बी एस धनोवा (15405), उड़न, 14 जून 2010 (कल्पित वरीयता 17 मई 2010)

एयर वाइस मार्शल डी पी उपोट (15544), उड़न, 14 जून 2010

एयर वाइस मार्शल पी एस मान (15570), उड़न, 14 जून 2010

एयर वाइस मार्शल आर के धीर (15678), उड़न, 01 जुलाई 2010  
 एयर वाइस मार्शल एस नीलकण्ठन (15184), उड़न, 30 मार्च 2011 (कल्पित वरीयता 09 अगस्त 2010)  
 एयर वाइस मार्शल ए खोसला (15871), उड़न, 01 दिसम्बर 2010  
 एयर वाइस मार्शल सी हरिकुमार (15881), उड़न, 24 दिसम्बर 2010  
 एयर वाइस मार्शल एस आर के नायर (16040), उड़न, 01 जनवरी 2011  
 एयर वाइस मार्शल एस बी पी सिन्हा (16053), उड़न, 01 फरवरी 2011

लेखा शाखा

एयर वाइस मार्शल एस एच सिंह (16071), उड़न, 01 फरवरी 2011

एयर वाइस मार्शल सी वी सुब्रमन्यम (14982), लेखा, 01 मार्च 2011

एयर कमोडोर के मूल रैंक में

एयर कमोडोर पी के मुखर्जी (15381), लेखा, 01 मार्च 2011

शिक्षा शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन के सी तनेजा (17072), शिक्षा, 01 अप्रैल 2011

उड़न शाखा

ग्रुप कैप्टन (उड़न) के मूल रैंक में

रैंक, नाम, संख्या, शाखा व दिनांक

ग्रुप कैप्टन के वी आर राजू (18573), उ(पा), 02 मार्च 2009

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन जे मिश्रा (18575), उ(पा), से ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन पी उपाध्याय (18581), उ(पा), 06 जुलाई 2009 (काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2009)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन वी भलोत्रा (18579), उ(पा)से नीचे और ग्रुप कैप्टन यू कुमार (18582), उ(पा), से ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन एन के अत्री (18088), उ(पा), 01 जून 2009

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन ई के प्रसाद (18600), उ(पा), से ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन ए के भारती (18781), उ(पा), 13 सितम्बर 2010 (काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन ए आर गौरे (18783), उ(पा), से ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन एन कानित्कर (18799), उ(पा), 15 फरवरी 2010 (काल्पनिक वरीयता 14 दिसम्बर 2009)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन आर वैद्य (18798), उ(पा), से नीचे प्रदर्शित होगा।

- ग्रुप कैप्टन ए वोरा (18801), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन ओ जे एस माल्ही (18803), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन पी एस जजमान (18804), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन टी सिंह (18806), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन आर रंजन (18810), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन ए शर्मा (18811), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन वी देदगॉवकर (18813), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन जी आर रूबेन (18814), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन एस एस पी राव (18820), उ(पा), 15 फरवरी 2010  
 (काल्पनिक वरीयता 14 दिसम्बर 2009)  
 ग्रुप कैप्टन टी एस चौहान (18821), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन के एस के सुरेश (18822), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन एम वाई मराठे (18824), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन बी जोहरी (18831), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन एस जोस (18839), उ(पा), 14 दिसम्बर 2009  
 ग्रुप कैप्टन एन भल्ला (19160), उ(पा), 01 जनवरी 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी के वोरा (19162), उ(पा), 01 जनवरी 2010  
 ग्रुप कैप्टन आर चावला (19168), उ(पा), 01 जनवरी 2010  
 ग्रुप कैप्टन आर पुरोहित (19170), उ(पा), 28 जनवरी 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस पुरी (19176), उ(पा), 15 फरवरी 2010  
 ग्रुप कैप्टन एच बैन्स (19180), उ(पा), 01 मार्च 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस सूद (19181), उ(पा), 01 मार्च 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी महेश्वर (19183), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी शर्मा (19186), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस शर्मा (19189), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन वाई सिंह (19190), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन ए मुखर्जी (19191), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन वी वी एन श्रीकान्त (19195), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस चौधरी (19207), उ(पा), 31 जुलाई 2010  
 (काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2010)  
 ग्रुप कैप्टन ए के पुन्ताम्बेकर (19210), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस एन्टोनी (19211), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस श्रीनिवासन(19520), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस मेहरा (19524), उ(पा), 01 अप्रैल 2010

- ग्रुप कैप्टन के वी एस नायर (19528), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन बी गोयल (19530), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी आर जयचन्द्रन (19536), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन के खजुरिया (19538), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन डी वेदाज्जा(19539), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन बी एस भुल्लर (19543), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एम बी असेरकर (19540), उ(पा), 01 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एम रवि किरण (19550), उ(पा), 16 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एम एम राव (19556), उ(पा), 16 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस के मिश्रा (19570), उ(पा), 17 अप्रैल 2010  
 ग्रुप कैप्टन एच ए राथेर (19863), उ(पा), 01 मई 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस धनकर (19865), उ(पा), 01 मई 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस एस शर्मा (19866), उ(पा), 01 मई 2010  
 ग्रुप कैप्टन आर वर्मा (19868), उ(पा), 01 मई 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस खन्ना (19870), उ(पा), 03 मई 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी वी सतीश (19876), उ(पा), 01 जून 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस एम वाहिद (19887), उ(पा), 01 जून 2010  
 ग्रुप कैप्टन ई जे एन्टोनी (19892), उ(पा), 01 जून 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस के वर्मा (19895), उ(पा), 01 जुलाई 2010  
 ग्रुप कैप्टन आर वी सिन्दे (19897), उ(पा), 03 नवम्बर 2010  
 (काल्पनिक वरीयता 06 जुलाई 2010)  
 ग्रुप कैप्टन पी वी शिवानन्द (19901), उ(पा), 06 जुलाई 2010  
 ग्रुप कैप्टन पी सेन (19907), उ(पा), 16 जुलाई 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस मिश्रा (19965), उ(पा), 01 अगस्त 2010  
 ग्रुप कैप्टन वी कुमार (19881), उ(पा), 02 अगस्त 2010  
 ग्रुप कैप्टन एस थीनलेस (19970), उ(पा), 16 अगस्त 2010

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

-----  
 वायु सेना

सं. 386, दिनांक 29 जुलाई 2011--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

स्वॉर्डन लीडर से विंग कमांडर के मूल रैंक में

प्रशासन शाखा

जे सिंह (23602), जी एन वी वी आनंद (23626), आर शर्मा (23607), ए सी पाण्डे (23599), टी एस खान (23614), ए रॉय

(23617), एम वी निलंगेकर (23611), एस एच भण्डारी (23601), एस टी पुनाथिल (23596), एस जी पिसे (23623), एच के पाण्डे (23592), एम भारद्वाज (23593), पी जे पी एस बईच (23594), जे पी पात्रो (23621), एस आर त्रिपाठी (23622), आर श्रीनिवासन (23590), टी सनिल (23609), आर डी देशपाण्डे (23631), आर जनार्दनन (23603)--17 जून 2008 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

एम ए देशपाण्डे (23633), एच सी एस चौहान (23632), एस टी नांग्याल (23635)--17 जून 2008 से प्रभावी।

मेट शाखा

एम टी नंजप्पा (23135), 17 जून 2008 से प्रभावी।

फ्ला अफसर से फ्लाईट लेफ्टि के मूल रैंक में

एफ(पी) शाखा

एन राय (29931), 21 जून 2010 से प्रभावी।

ईई(एल) शाखा

पी के गुप्ता (30109), 07 जुलाई 2010 से प्रभावी।

(श्रीमती) एस बी पिल्ले (22456), 06 अप्रैल 1998 से प्रभावी।

तरुण खरे  
विंग कमांडर  
संयुक्त निदेशक  
कार्मिक अफसर-3(डी)

सेना शाखा

सं. 387, दिनांक 01 अगस्त 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 25 जून 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

शैलजा चौधरी (एमएस-15151डब्ल्यू) (एमआर-09157एफ), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

नेहा गर्ग (एमएस-15329एफ) (एमआर-09144के), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

मकवाण सौरभभाई कान्तिभाई (एमएस-15363एफ) (एमआर-09140एन), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अरुणावा मुखर्जी (एमएस-15327डब्ल्यू) (एमआर- 09131एम), एएमसी, 22 सितम्बर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 22 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

जिंदमवार प्रशांत धर्मन्ना (एमएस-15139पी) (एमआर- 09130के), एएमसी, 16 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

लेफ्टि के पद पर

मोहन शर्मा (एमएस-15532एक्स) (एमआर- 09155डब्ल्यू), एएमसी, 26 मार्च 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सं. 388, दिनांक 01 अगस्त 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री अमर सिंह (जन्मतिथि : 12 जुलाई 1951) की अधिवर्षिता की आयु होने पर उन्हें 31 जुलाई 2011 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली  
अवर सचिव

अधिसूचना/रद्द किया जाना

सं. 389, दिनांक 01 अगस्त 2011--रक्षा मंत्रालय की दिनांक 11 मई 2011 की निम्नलिखित अधिसूचना को रद्द माना जाए :-

सं. ए-19013/2/2007-रक्षा (स्था. I/गुप-I) जो श्री सुभाष सी शर्मा, निदेशक के संबंध में है।

सं. ए-19013/15/2010-रक्षा (स्था. I/गुप-I) जो श्री के एस राव, उप सचिव के संबंध में है; और

सं. ए-19013/7/2009-रक्षा (स्था. I/गुप-I) जो उप सचिव श्री एस एस मेहरा, के संबंध में है।

के मुरली  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd September 2011

No. 375, dated 26th July 2011—The President has made the following appointment with effect from 01 July 2011 :—

## D(MS)/SECTION

Honorary Air ADC

Air Marshal KK Nohwar, PVSM, VM (13132) F(P)

Vice Air Marshal S Mukerji, PVSM, SC, VSM (12925) F(P)

R SUNDER  
Under Secy

No. 376, dated 26th July 2011—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 by the Department of Personnel and Training vide their Office Order No. 4/2/2010-CS.I(D) dated the 4th April, 2011, the President is pleased to appoint Shri S N Sharma, CSS, Under Secretary, Ministry of Civil Aviation as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 06th April, 2011(FN).

On his appointment as Officer on Special Duty in the personal staff of Minister of Heavy Industries & Public Enterprises (Shri Praful Patel), the services of Shri S N Sharma, CSS, Deputy Secretary are placed at the disposal of Ministry of Heavy Industry wef 14 Jun 2011 (AN).

The President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Defence, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the same Ministry on ad-hoc basis in the Revised Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + G.P. Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 02 May 2011 till 30 Sep 2011 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier, in terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31 Mar 2011, subject to the following conditions :—

C L Sachdeva

V S Rawat

Suklal Barma

The ad-hoc appointment shall not confer them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of

Defence, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the same Ministry on ad-hoc basis in the Revised Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + G.P. Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 29 Apr 2011 till 30 Sep 2011 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier in terms of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/2/2011-CS.II(A), dated 31 Mar 2011, subject to the following conditions :—

Rita Ghosh

S P Bhatnagar

Virender Kumar

Parveen Arora

Umesh Chander Pandey

K Madhavi

Radha Garg

N Ramamurthy

S K Srivastav

Deveshwari Chauhan

Narinder Kaur

Sunil Kumar Trehan

Pushpa Manchanda

Veena Bhalla

V Murlitharan

S Bhagchandani

Manju Bala Arora

Rajani Manoranjan

N C S Bora

Ashok Kumar Chakravarty

Anjali Rani Alag

Sujatha Prasad

Surinder Kumar Sharma

Neelam Bansal

Sushma Nagpal

A K Sharma

Inderjeet Sharma

Umraw Singh

Rachna Gaba

Sanjay Bhalla

Rakesh Kumar

Anil Bhalla

Rukmani  
 Satish Chander  
 Harish Sukram Dongre  
 Kamal Gandhi  
 Rita Manchanda  
 Sunita Sharma  
 Shanti Negi  
 Paramjeet Juneja  
 Suresh B Manker

The ad-hoc appointment shall not confer them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.

Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

K MURALI  
 Under Secy

#### AIR HEADQUARTERS

No. 377, dated 26th July 2011—The President is pleased to appoint undermentioned Section Officers, (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Services as temporary Deputy Director (Group 'A' Gazetted) in the Grade Pay of Rs. 6,600/- (Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/-) under Rule 7(8) of AFHQ Civil Services Rule 2001 with effect from 19 Apr 2011 to 18 Oct 2011 or till they retire or till the regular incumbents become available, whichever is earlier :—

Name (S/Sh/Smt) & Date of Birth

SK Singh, 13 Jan 1956  
 Umakant Pandey, 14 Dec 1959  
 UL Meena, 03 May 1966  
 Vinod Kumar Sharma, 08 Nov 1962  
 SK Gayen, 01 Apr 1965  
 Ranjeet Singh, 01 Jul 1965  
 Subhash Chander, 27 Dec 1961  
 Prasanna Kumar Das, 02 May 1963  
 Superna Prasad Dev, 01 Jan 1968  
 Mahendra Kumar, 06 Feb 1967  
 Suresh Kumar, 15 Jun 1964  
 Rabindra Nath Das, 19 Jan 1964  
 Kamat Shah, 17 May 1964

The appointment is subject to the following conditions :—

These appointment are made purely as a stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The officers will not have any claim for appointment to the above post on regular basis, nor will their service rendered as Deputy Director under Rule 7(8) reckon for seniority in that grade.

The Competent Authority is pleased to appoint undermentioned Assistants of AFHQ Civil Service as Section Officer (Group 'B' Gazetted) on adhoc basis in the Grade Pay of Rs. 4,800/- (Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800) with effect from 03 May 2011 for a period of one year or till they retire or till the regular incumbents become available or until further orders whichever is earlier :—

Deepak Kumar

RN Banati

Kiran Phull

These appointment are subject to the following conditions :—

The appointment is made purely on adhoc basis and that such appointment will not bestow on the person a claim for regular appointment.

The service rendered on adhoc basis in the grade of Section Officer would not count for the purpose of seniority in that grade and of eligibility for promotion to the next higher grade.

AK LAROIYA  
 Dy Chief Administrative Officer

#### NAVY BRANCH

No. 378, dated 27th July 2011—The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service Cadre, Logistics Cadre, ATC Cadre, Law Cadre & NAI Cadre), Education Branch, Engineering Branch (General Service Cadre), Electrical Branch (General Service Cadre), Engineering Branch (Submarine Cadre), Electrical Branch (Submarine Cadre) and Engineering Branch (Naval Architecture Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme/University Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 26 May 2010, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 04 Sep 2008 & MF/1822/DES/ Vol-IV/03 dated 26 May 2010 from the date shown against the name :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers (P. No.), Type of Commission, Date of Commission

EXECUTIVE BRANCH (General Service Cadre) : Jul 2007

Rahul Shinde (06063B), SSC, 09 Jul 2007

Prabhdeep Singh Sandhu (06064F), SSC, 09 Jul 2007

Tilak Singh Baloria (06065H), SSC, 09 Jul 2007

Sandeep Chintalapalle (06067N), SSC, 09 Jul 2007

Nirmal Kumar Arle (06069T), SSC, 09 Jul 2007

Sunil Kumar Yadav (06070W), SSC, 09 Jul 2007

Hussein Juzer Sakerwala (06071Y), SSC, 09 Jul 2007

Rajiv Bhagwanrao Gite (06073A), SSC, 09 Jul 2007

Sachin Verma (06074B), SSC, 09 Jul 2007

Amarnath B Prabhakara (06076H), SSC, 15 Jul 2007

Aman Sharma (06077K), SSC, 09 Jul 2007

Sachin Nair (06078N), SSC, 23 Jul 2007

Varun Kumar Dhand (06079R), SSC, 29 Jul 2007

Rahul Charan (06080T), SSC, 30 Jul 2007

Executive Branch (Logistics Cadre) : Aug 2007 Course

Jyotsana Nagarkoti (06081W), SSC, 06 Aug 2007

Sarita Nagayach (06082Y), SSC, 06 Aug 2007

Kaberi Kasturi (06083Z), SSC, 06 Aug 2007

Ashutosh Kimothi (06084A), SSC, 06 Aug 2007

Hitendra Pratap Singh Jadon (06085B), SSC, 06 Aug 2007

Pawan Kumar (06086F), SSC, 06 Aug 2007

Mukesh Bhandari (06087H), SSC, 06 Aug 2007

Amit Kumari (06089N), SSC, 06 Aug 2007

Manish Kundu (06090R), SSC, 06 Aug 2007

Mithun Nair (06091T), SSC, 06 Aug 2007

Vidya Sagar Mehta (06092W), SSC, 06 Aug 2007

Pradeep Kumar (06093Y), SSC, 06 Aug 2007

Dipti Behl (06094Z), SSC, 06 Aug 2007

Manish Dimri (06095A), SSC, 06 Aug 2007

Vijeta Yadav (06096B), SSC, 06 Aug 2007

Taranjit Singh (06097F), SSC, 16 Aug 2007

Bhanu Pratap Singh (06098H), SSC, 17 Sep 2007

Swaraj Singh (06099K), SSC, 18 Aug 2007

Sandeep Singh (06100N), SSC, 19 Aug 2007

Anjali Tiwari (06101R), SSC, 19 Aug 2007

Executive Branch (ATC Cadre) : Aug 2007 Course

Sanjeev Kumar (06102T), SSC, 18 Aug 2007

Arun Kumar Patra (06103W), SSC, 20 Aug 2007

Gurmit Kaur (06104Y), SSC, 06 Aug 2007

Swapna Andamukkil (06105Z), SSC, 06 Aug 2007

Executive Branch (Law Cadre) : Aug 2007 Course

Seema Choudhary (06106A), SSC, 06 Aug 2007

Digvijay Dyandeo Jadhav (06107B), SSC, 06 Aug 2007

Subha Suresh Naik (06108F), SSC, 06 Aug 2007

Executive Branch (NAI Cadre) : Aug 2007 Course

Sandeep Kumar (06109H), PC, 09 Jul 2007

Mithun K Thankappan (06110K), PC, 09 Jul 2007

Harkamal Singh Chauhan (06111N), PC, 23 Jul 2007

EDUCATION BRANCH : Aug 2007

Ashutosh Shukla (70578B), SSC, 06 Aug 2007

Sapana Chintaman Lanjewar (70580H), SSC, 06 Aug 2007

Shweta Kapur (70581K), SSC, 06 Aug 2007

Poorvi Kanwar Chauhan (70582N), SSC, 06 Aug 2007

Samedha Sada Naik (70583R), SSC, 06 Aug 2007

Surinder Singh (70585W), SSC, 06 Aug 2007

DIRECT ENTRY SCHEME

ENGINEERING BRANCH (General Service Cadre)

Nitin Nanda (42793F), SSC, 06 Aug 2007

Somvir Taksak (42794H), SSC, 06 Aug 2007

Abhishek Shrivastava (42795K), SSC, 06 Aug 2007

Vikas Hooda (42796N), SSC, 06 Aug 2007

Vinod Kumar (42798T), SSC, 06 Aug 2007

ELECTRICAL BRANCH (General Service Cadre)

Prateek Sharma (52302T), SSC, 06 Aug 2007

Nilutpal Changmai (52303W), SSC, 06 Aug 2007

Abhishek Tomar (52304Y), SSC, 06 Aug 2007

Beniram Singh Khurajam (52305Z), SSC, 06 Aug 2007

Vikrant Bhaushaheb Gaikwad (52306A), SSC, 06 Aug 2007

Niral Priram Mundu (52307B), SSC, 06 Aug 2007

Surkute Sandeep Kumar Sudhakar (52308F), SSC, 06 Aug 2007

ENGINEERING BRANCH (Submarines Cadre)

V L Bharath (42786R), SSC, 06 Aug 2007

ELECTRICAL BRANCH (Submarines Cadre)

Manpreet Singh (52301R), SSC, 06 Aug 2007

ENGINEERING BRANCH (Naval Architecture Cadre)

Tarun (42814B), SSC, 06 Aug 2007

Sharadwata Gupta (42787T), SSC, 06 Aug 2007

Shalini Kulloppilly Rajappan (42788W), SSC, 06 Aug 2007

Gautam Kundapur (42789Y), SSC, 06 Aug 2007

Pradeep Harirajan Meena (42790Z), SSC, 06 Aug 2007

Kuzhali Vidhya Durairaj (42791A), SSC, 06 Aug 2007

Meera Andra (42792B), SSC, 06 Aug 2007

UNIVERSITY ENTRY SCHEME

Engineering Branch (General Service Cadre)

Hardeep Singh Rana (42799W), SSC, 06 Aug 2007

Sajiv Sasindran (42800Y), SSC, 06 Aug 2007

Abhishek Ahuja (42801Z), SSC, 06 Aug 2007

Kartik Bhake (42802A), SSC, 06 Aug 2007

Pradumna Sharma (42803B), SSC, 06 Aug 2007

Vijay Shankar Ganesh (42804F), SSC, 06 Aug 2007

Tushar Ranade (42806K), SSC, 11 Aug 2007

Kripesh Jha (42807N), SSC, 06 Aug 2007

Anuroop Killiyot (42808R), SSC, 06 Aug 2007

Jasdeep Singh Sahni (42809T), SSC, 06 Aug 2007

Raghavendra Konaguru (42811Y), SSC, 06 Aug 2007

Jithin Jayachandran (42812Z), SSC, 06 Aug 2007

Rohit Juyal (42813A), SSC, 06 Aug 2007

ELECTRICAL BRANCH (General Service Cadre)

Anoopraj Medyl Devarajan (52309H), SSC, 06 Aug 2007

Pratap Singh Shekhawat (52310K), SSC, 06 Aug 2007

Anshul Gupta (52311N), SSC, 06 Aug 2007

Thomas Mathew John (52312R), SSC, 06 Aug 2007

Ashish Kumar Tripathi (52313T), SSC, 06 Aug 2007

Deepak Sharma (52314W), SSC, 06 Aug 2007

Sachin Gupta (52315Y), SSC, 06 Aug 2007

Devender Phogat (52316Z), SSC, 06 Aug 2007

Prashant Pawan (52318B), SSC, 06 Aug 2007

Shivam Shrivastava (52319F), SSC, 06 Aug 2007

Anirban Ghosh (52320H), SSC, 06 Aug 2007

Vivek Sharma (52321K), SSC, 06 Aug 2007

Girish M (52322N), SSC, 06 Aug 2007

Sameer Chaudhary (52323R), SSC, 06 Aug 2007

Lovekesh Kumar (52324T), SSC, 06 Aug 2007

Anirban Mukherjee (52325W), SSC, 06 Aug 2007

Nilesh Gupta (52326Y), SSC, 06 Aug 2007

Yatish Chaturvedi (52327Z), SSC, 06 Aug 2007

Repsol Raj (52328A), SSC, 06 Aug 2007

The President is pleased to make the following appointment in the Executive Branch (General Service Cadre), Education Branch and Engineering Branch (General Service Cadre) of

the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03 dated 27 Aug 2008, MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 21 Jan 2008 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 25 Aug 2008 from the dates shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers (P. No.), Type of Commission, Date of Commission

EXECUTIVE BRANCH (General Service Cadre) : Jan 2006

Anshuman Behera (05802K), SSC, 09 Jan 2006

EDUCATION BRANCH : Feb 2006

Yogesh Tyagi (70557F), PC, 06 Feb 2006

ENGINEERING BRANCH (General Service Cadre) : Feb 2006

Vikash (42669Z), SSC, 06 Feb 2006

The President is pleased to make the following appointments in the Education Branch, Electrical Branch (Submarine Cadre) and Engineering Branch (Naval Architecture Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme/University Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1401/DES/Vol-II/03 dated 25 Aug 2008 & MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 29 Aug 2008 from the dates shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers (P. No.), Type of Commission, Date of Commission

EDUCATION BRANCH : Aug 2006

Deepankar Adhikari (70567B), SSC, 07 Aug 2006

ELECTRICAL BRANCH (Submarine Cadre) : Aug 2006

Om Shankar Pandey (52223N), SSC, 22 Aug 2006

ENGINEERING BRANCH (NA Cadre) (UES) : Aug 2006

Nirmal P (42700W), SSC, 07 Aug 2006

The President is pleased to make the following appointments in the Electrical Branch (General Service Cadre) & Electrical Branch (Submarine Cadre) of the Indian Navy for Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/Vol-IV/03 dated 30 May 2007 from the dates shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Name of the Officers (P. No.), Type of Commission, Date of Commission

ELECTRICAL BRANCH (General Service Cadre) : Feb 2005

Deepender Singh (52066F), SSC, 07 Feb 2005

ELECTRICAL BRANCH (Submarine Cadre) : Feb 2005

Sachin Bansal (52085Z), SSC, 17 Feb 2005

R RAJAGOPALAN  
Commander  
JDMPR (OI & R)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION

No. 379, dated 27th July 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-

Name (PIN No.), Estt./Lab, Date of Joining

Chandrashekhar Singh (2009AB1008), ADE, Bangalore, 03 Jun 2009

Yogesh Kr Dewangan (2009AB1087), ADE, Bangalore, 03 Jun 2009

Shachindra (2008AB1027), ADRDE, Agra, 21 May 2008

Ashwini Kaushal (2009AB1250), ADRDE, Agra, 03 Jun 2009

Kajod Mal Sharma (2009AB1300), ARDE, Pune, 06 Jul 2009

Rakesh Kumar (2009AB1607), ASL, Hyderabad, 01 Dec 2009

Eswara Rao Sundupalli (2010AB1017), ASL, Hyderabad, 19 May 2010

G Murali (2007AB1307), ASL, Hyderabad, 23 May 2007

Vikram Singh Parihar (2010AB1192), ANURAG, Hyderabad, 18 Nov 2010

Satish Maina Muppidi (2009AB1572), ANURAG, Hyderabad, 01 Dec 2009

Danababu Chennuri (2008AB1044), ANURAG, Hyderabad, 21 May 2008

Kumar Kaushik (2009AB1405), CFEES, Delhi, 03 Jun 2009

Ashwani Kumar Gupta (2009AB1356), CFEES, Delhi, 03 Jun 2009

Tabrej Ahmed Khan (2007AB1010), CFEES, Delhi, 23 May 2007

Valluri Ravi Prasad (2008AB1408), CVRDE, Chennai, 21 May 2008

S Sugumar (2009AB1476), CVRDE, Chennai, 27 Apr 2009

Manohar T K (2009AB1490), CVRDE, Chennai, 25 Aug 2009

Dharmendra Kumar (2008AB1619), DEAL, Dehradun, 03 Dec 2008

Vikas Yadav (2009AB1020), DEAL, Dehradun, 05 Jun 2009

Pankaj Kumar (2008AB1573), DEBEL, Bangalore, 03 Dec 2008

Rajkumar Sukumaran (2008AB1257), DEBEL, Bangalore, 21 May 2008

Kshetra Pal Singh (2010AB1246), DIBER, Haldwani, 24 May 2010

Anuja Kumari (2008AB1501), DIBER, Haldwani, 08 Feb 2008

Ajay Chaturvedi (2009AB1175), DRDE, Gwalior, 03 Jun 2009

Lalit Kumar (2010AB1127), DLRL, Hyderabad, 19 May 2010

M Krishna Prasad (2008AB1637), DLRL, Hyderabad, 22 Aug 2008

Boda Saravan Naik (2008AB1302), DLRL, Hyderabad, 21 May 2008

Zaddu Sudhakar (2007AB1320), DLRL, Hyderabad, 23 May 2007

Sagnik Biswas (2010AB1076), DLRL, Hyderabad, 19 May 2010

Prabakar K (2008AB1491), DMRL, Hyderabad, 21 Feb 2008

Dhirendra Sahu (2009AB1254), DMRL, Hyderabad, 03 Jun 2009

Anu Anna Abraham (2009AB1461), DMSRDE, Kanpur, 11 Jun 2009

C Shrivanthi (2010AB1055), DRDL, Hyderabad, 19 May 2010

Anil Kumar Jaiswal (2009AB1251), DRDL, Hyderabad, 03 Jun 2009

Manish C Khaire (2008AB1375), DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

Mohammad Ikram (2009AB1557), DRDL/ANSP, Hyderabad, 01 Dec 2009

Prateek Bansal (2010AB1249), DTRL, Delhi, 10 Nov 2010

K Ajaathasathru (2008AB1648), GTRE, Bangalore, 03 Dec 2008

P Kirubakaran (2009AB1528), GTRE, Bangalore, 01 Dec 2009

Sanju Kumar (2007AB1060), GTRE, Bangalore, 16 Aug 2007

Bejoy T (2009AB1400), HEMRL, Pune, 03 Jun 2009

Ashutosh Omprakash Sharma (2008AB1651), HEMRL, Pune, 31 Oct 2008

Jitendra Singh (2009AB1404), HEMRL, Pune, 03 Jun 2009

Amit Kumar Happy (2010AB1220), IRDE, Dehradun, 26 Nov 2010

Sandeep Bisht (2010AB1071), IRDE, Dehradun, 19 May 2010



Abhishek (2009AB1680), IRDE, Dehradun, 01 Dec 2009

Kumari Pooja (2009AB1241), IRDE, Dehradun, 03 Jun 2009

Mistu Mahajabin (2009AB1050), ITR, Balasore, 03 Jun 2009

Gagan Preet (2008AB1161), LASTEC, Delhi, 21 May 2008

Bhabatitadev Das (2008AB1593), LRDE, Bangalore, 03 Dec 2008

Anant Raut (2008AB1175), LRDE, Bangalore, 21 May 2008

Ravindranadh Tiruvaipati (2008AB1178), LRDE, Bangalore, 21 May 2008

Mamilla Sivasankar (2008AB1177), LRDE, Bangalore, 21 May 2008

R Avinash (2009AB1006), LRDE, Bangalore, 03 Jun 2009

Peter Joseph B Morris (2009AB1098), LRDE, Bangalore, 03 Jun 2009

Rahul Agrawal (2009AB1200), LRDE, Bangalore, 03 Jun 2009

Varun Parchure (2010AB1132), MTRDC, Bangalore, 19 May 2010

Vishwas Jayarama (2010AB1254), NMRL, Ambarnath, 23 Nov 2010

Krishna Kanta Sarkar (2009AB1377), NMRL, Ambarnath, 03 Jun 2009

G K Pali (2009AB1358), NSTL, Vishakhapatnam, 03 Jun 2009

Mamidi Nageswara Rao (2008AB1223), NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008

Nabjyoti Sharma (2009AB1054), NSTL, Vishakhapatnam, 03 Jun 2009

Uppada Urban Kumar (2009AB1269), NSTL, Vishakhapatnam, 22 Jun 2009

Prem Kumar Sahani (2009AB1142), PXE, Balasore, 03 Jun 2009

Khansa C A (2010AB1066), RCI, Hyderabad, 19 May 2010

Mohd Juned Ansarai (2008AB1303), RCI, Hyderabad, 21 May 2008

Koustav Sadhukhan (2009AB1043), RCI, Hyderabad, 08 Jun 2009

R Srikanth Putsala (2008AB1610), RCI, Hyderabad, 03 Dec 2008

Bibhu Satyam (2010AB1157), RCI, Hyderabad, 19 May 2010

Md Ismail (2008AB1276), RCI, Hyderabad, 21 May 2008

Jaison Cletus (2009AB1406), RCMA(AA), Pune, 03 Jun 2009

Ravi Tiwari (2009AB1591), R&DE(E), Pune, 01 Dec 2009

Shyam Kishore (2009AB1608), SFC, Jagdalpur, 01 Dec 2009

Gaurav Pratap (2008AB1156), SSPL, Delhi, 21 May 2008

Rekha Verma (2009AB1431), SSPL, Delhi, 03 Jun 2009

V P PANDE  
Associate Dir

#### AIR BRANCH

No. 380, dated 27th July 2011—The President is pleased to award Permanent Commission and Brevets (On Probation) in the Flying (Navigator) Branch of the IAF to the undermentioned Flight Cadets in the rank of Fg Offr wef 27 Jun 2009 under the provisions of AFO 59/98. These Officers will be eligible for grant of Flying Pay with effect from the date of grant of PC & Brevets (On Probation) i e 27 Jun 2009.

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

#### Ex-Flt Cdts to be Flg Offrs

Fg Offr Rahul Singh (30420), Sushil Kumar Sandhu (30427), Achu Kuzhiyeth (30453) wef 27 Jun 2009

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) Branch of the IAF to the undermentioned Officers in the rank of Fg Offr wef 27 Jun 2009 under the provisions of Govt of India Ministry of Defence Letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)BM-IV dated 14 Jun 2007. These Officers are eligible for Flying Pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i e 27 Jun 2009.

#### INDIAN AIR FORCE

#### FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

#### Ex-Flight Cadets to be Flying Offrs

Fg Offr Vikul Kumar Rathi (30515) wef 27 Jun 2009

Fg Offr Akshay Maan Singh (30508), Anshul Agarwal (30509), Aman Mehta (30512) wef 27 Jun 2009

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned Officers wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Ministry of Defence Letter No. Air HQ/24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer

#### INDIAN AIR FORCE

**AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)**

Fg Offr Anuj Chopra (30618), Gurjeet Singh (30619), Aumkar Praveen Desai (30620), Kishore Kumar Hirwani (30621), Ankur Yadav (30622) wef 13 Jul 2009

**AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)**

Fg Offr Krishnan Namboodiri V (30570), Abhishek Kumar Singh (30623), Himanshu Hemrajani (30624), Gaurav Choudhry (30625), Jeswanth Kumar Pazhaniswamy (30626), Ankit Gupta (30627), Anil Sharma (30628), Kishor Thakral (30629), Ramesh Kumar Krishnasamy (30630), Mohit Kumar Bahal (30631), Rahul Veeravali (30633), Anubhav Sinha (30635), Nachiketa Bhoraniya (30636), Jitin Khurana (30637), Rohit Chauhan (30638) wef 13 Jul 2009

Fg Offr Saubhadra Kumar Gupta (30686) wef 17 Jul 2009

**AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)**

Fg Offr Swati Hatwal (30639), Sonika Kumari (30640) wef 13 Jul 2009

**AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)**

Fg Offr Neelofer Khan (30642), Tarang Arya (30643), Aman Preet Kaur Sehgal (30644), Beena Pandey (30645), Rajashree Abhiraman (30646), Jyoti Chauhan (30647), Priyanka Karwasra (30649), Meenakshi Kumari (30650), Megha Gupta (30651), Upasna Sohlot (30652), Sonika (30653), Aarti Singh (30654), Praneeta Raina (30655), Priyanka Joshi (30656), G Sharda (30657), Manisha Tyagi (30658), Roseline KM Joseph (30659), Dipti Kala (30660), Suvidha Gupta (30661), Sanjivani Vitthalrao Mohite (30662), Suruchi Goel (30663), Dhruvika Raj (30664), Neha Gautam (30665), Aditi Sisodia (30666), Meenakshi Shrivastava (30667), Shivangi (30668), Saranjot Kaur (30669), Tripti Verma (30670), Meha Gautam (30672), Anupriya Nigam (30673), Jemini (30674), Mamatha D (30675), Krati Dixit (30676), Gayathry V (30677), Sumendhra Chopra (30678), Rainy Sharma (30679) wef 13 Jul 2009

Fg Offr Sangeetha Nair (30685) wef 14 Jul 2009

The President is pleased to Terminate the Provisional Short Service Commission granted to the undermentioned Officers and grant them Short Service Commission (On Probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India Ministry of Defence Letter No. Air HQ/ 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer

**INDIAN AIR FORCE****AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)**

Fg Offr Anuj Chopra (30618), Gurjeet Singh (30619), Aumkar Praveen Desai (30620), Kishore Kumar Hirwani (30621), Ankur Yadav (30622) wef 02 Jul 2010

**AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)**

Fg Offr Krishnan Namboodiri V (30570), Abhishek Kumar Singh (30623), Himanshu Hemrajani (30624), Gaurav Choudhry (30625), Jeswanth Kumar Pazhaniswamy (30626), Ankit Gupta (30627), Anil Sharma (30628), Kishor Thakral (30629), Ramesh Kumar Krishnasamy (30630), Mohit Kumar Bahal (30631), Rahul Veeravali (30633), Anubhav Sinha (30635), Nachiketa Bhoraniya (30636), Jitin Khurana (30637), Rohit Chauhan (30638), Saubhadra Kumar Gupta (30686) wef 02 Jul 2010

**AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)**

Fg Offr Swati Hatwal (30639), Sonika Kumari (30640) wef 02 Jul 2010

**AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)**

Fg Offr Neelofer Khan (30642), Tarang Arya (30643), Aman Preet Kaur Sehgal (30644), Beena Pandey (30645), Rajshree Abhiraman (30646), Jyoti Chauhan (30647), Priyanka Karwasra (30649), Meenakshi Kumari (30650), Megha Gupta (30651), Upasna Sohlot (30652), Sonika (30653), Aarti Singh (30654), Praneeta Raina (30655), Priyanka Joshi (30656), G Sharda (30657), Manisha Tyagi (30658), Roseline KM Joseph (30659), Dipti Kala (30660), Suvidha Gupta (30661), Sanjivani Vitthalrao Mohite (30662), Suruchi Goel (30663), Dhruvika Raj (30664), Neha Gautam (30665), Aditi Sisodia (30666), Meenakshi Shrivastava (30667), Shivangi (30668), Saranjot Kaur (30669), Tripti Verma (30670), Meha Gautam (30672), Anupriya Nigam (30673), Jemini (30674), Mamatha D (30675), Krati Dixit (30676), Gayathry V (30677), Sumendhra Chopta (30678), Rainy Sharma (30679), Sangeetha Nair (30685) wef 02 Jul 2010

TARUN KHARE  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

No. 381, dated 28th July 2011—The President is pleased to confirmed the undermentioned Officers who were granted Permanent Commission and Brevets (On Probation) in Flying (Navigator) Branch, wef the date stated against their names :—

**INDIAN AIR FORCE****FLYING (NAVIGATOR) BRANCH**

Fg Offr AMS Sambyal (30508) F(N)

Fg Offr Anshul Agarwal (30509) F(N)

Fg Offr Aman Mehta (30512) F(N)

Fg Offr Rahul Singh (30420) F(N)

Fg Offr Sushil Kumar (30427) F(N)

Fg Offr Achu Kuzhiyeth (30453) F(N)

Confirmation—wef 27 Jun 2009

**FLYING (NAVIGATOR) BRANCH**

Fg Offr AP Yadav (30174) wef 20 Dec 2008

The President is pleased to confirm the undermentioned Officer granted Short Service Commission wef the date stated against their names :—

INDIAN AIR FORCE

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Manoj Rawat (30517)

Fg Offr Krishna Gopal Singh Shaktawat (Late) (30518)

Fg Offr Saurab Punia (30519)

Fg Offr Ankit Saxena (30520) wef 27 Jun 2009

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Poornima P Ranade (30521), Divya Jyothi (30522) wef 27 Jun 2009

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr BS Venkat Rao (30486) wef 27 Jun 2009

EDUCATION BRANCH

Fg Offr AK Shukla (30487) wef 27 Jun 2009

MET BRANCH

Fg Offr SS Saini (30488) wef 27 Jun 2009

TARUN KHARE  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

ARMY BRANCH

No. 382, dated 28th July 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Air Cmde to AVM (& equivalent)

BK Rao (MR-03580L)(AF-14450), 09 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2009

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

R Chaudhary (MR-03691H) 18 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 20 Sep 2010

Col. (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

V K Sinha (MR-04598N), 15 Sep 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Aug 2010

S Rajagopalan (MR-04269X), 01 Oct 2010 with notional

seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

A B Khare (MR-04272X), 25 Oct 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

Jagtar Singh (MR-04276N), 29 Oct 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Sep 2010

R S Saini (MR-06121X), 17 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2010

MR Pant (MR-04801Y), 16 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 28 Oct 2010

J K Banerjee (MR-04676A), 21 Dec 2010 with notional seniority without effect on pay & pension from 29 Oct 2010

C S Narayanan (MR-04173P), 01 Dec 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 12 Oct 2009

Lt Col to Col (Time Scale)

Lt Col KK Das (MR-5191K), 19 Dec 2009

Lt Col Neelam Chhabra (MR-5297W), 03 Dec 2010

Lt Col Sarvinder Singh (MR-6100F), 06 Feb 2011

Wg Cdr to Gp Capt (Time Scale)

Wg Cdr Mukund Joshi (MR-5399M) (AF-18382S), 20 Dec 2010

Wg Cdr K Narayana (MR-6120P) (AF-18849S), 21 Mar 2011

To be Major

Jindamwar Prashant Dharmanna (MS-15139P) (MR-09130K), AMC, 16 Dec 2009

Ashish Chandha (MR-08806P), 12 Apr 2009

Arunava Mukherjee (MS-15327W) (MR-09131M), AMC, 22 Sep 2010

Makwana Saurabhbbhai Kantibhai (MS-15363F) (MR-09140N), AMC, 22 Sep 2010

Neha Garg (MS-15329F) (MR-09144-K), AMC, 22 Sep 2010

Shailza Chaudhary (MS-15151W) (MR-09157F), AMC, 16 Dec 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Mohan Sharma (MS-15532X) (MR-09155W), AMC, 06 Feb 2008

(MoD Notification published in Gazette of India dated 28 Aug 2010 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

## ARMY BRANCH

No. 383, dated 28th July 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name & Arms/Services

- (IC-72802) Praveen Kumar, Arty  
 (IC-72803) Jumade Abhishekh Digambarrao, Mech  
 (IC-72805) Anil Kumar Salgotra, Inf  
 (IC-72806) Jigyasu Puri, Arty  
 (IC-72807) Anil Kumar, ASC  
 (IC-72808) Abhik Dutta, Inf  
 (IC-72809) Sachin Sambhaji Deshmukh, Inf  
 (IC-72812) Singh Negi Mahendra Diwan, Arty  
 (IC-72813) Vivek Kumar Jaswal, Inf  
 (IC-72816) Dushyant Singh Shekhawat, Inf  
 (IC-72818) Rahul Tanwar, ASC  
 (IC-72819) Satish Kumar Singh, Arty  
 (IC-72821) Suman Kumar Sinha, AAD  
 (IC-72822) Bhaskar Limbu, Inf  
 (IC-72823) Shivshankar Deep S, Inf  
 (IC-72824) Mousam Kumar, Arty  
 (IC-72825) Pritikant Mohapatra, AAD  
 (IC-72827) Rakesh Kumar Dandapat, AAD  
 (IC-72828) Sharad Henery Joseph, Arty  
 (IC-72829) Tej Pratap Singh, Inf  
 (IC-72830) Neeraj Gupta, Arty  
 (IC-72831) Anurag Singh, Arty  
 (IC-72832) Susheel Kumar Choudhary, Arty  
 (IC-72835) Jadhav Mandar Chnandrakant, Inf  
 (IC-72838) Vikas Chauhan, Inf  
 (IC-72840) Rohit Guleria, Inf  
 (IC-72842) Girish Kumar Sharma, Inf  
 (IC-72843) Vikas Sharma, Inf  
 (IC-72844) Jai Deep, Arty  
 (IC-72845) Guriqbal Singh, Arty  
 (IC-72846) Omkar Joshi, AC  
 (IC-72847) M P Aiyappa, AC

- (IC-72848) Harsha Kumar, Inf  
 (IC-72849) Randeep Singh Bika, Inf  
 (IC-72850) Vinay Kumar Pandey, Inf  
 (IC-72851) Rakesh Kumar Singh, Arty  
 (IC-72852) Prateek Malik, AC  
 (IC-72854) Abhishek Rathee, Inf  
 (IC-72855) Haorokcham Khagemba, Inf  
 (IC-72856) Amit Kumar Pandey, Inf  
 (IC-72857) Neeraj Tuli, Arty  
 (IC-72858) Amit Kumar Yadav, Arty  
 (IC-72859) Manoj Kumar Khati, Inf  
 (IC-72860) Bharat Bhushan, AAD  
 (IC-72861) Mukund V, Inf  
 (IC-72863) Ramandeep Makkar, Arty  
 (IC-72865) Abhinav Kumar, Mech Inf  
 (IC-72866) Mukesh Kumar, K, Arty  
 (IC-72869) Vicky Chettri, Arty  
 (IC-72872) Harikesh Pratap Singh, AOC  
 (IC-72873) Gaikwad Shamrao Anand, Inf  
 (IC-72874) T Krishna Kumar, Inf  
 (IC-72875) Akshay Vijay Pawar, AC  
 (IC-72876) Vikas Kundu, AAD  
 (IC-72877) Vanlalsanga, Inf  
 (IC-72879) Atul Deoli, Arty  
 (IC-72880) Pradeep Kumar Sheokand, Inf  
 (IC-72881) Varun Vashista, ASC  
 (IC-72882) Chengappa C G, Inf  
 (IC-72883) Deepesh Prakash, Inf  
 (IC-72884) Gaurav Singh, Arty  
 (IC-72885) Vikash Raizada, AOC  
 (IC-72886) Brahmdev Singh, AOC  
 (IC-72888) Kapil Pathak, ASC  
 (IC-72889) Swagat Sharma, AC  
 (IC-72890) Gajendra S Shekhawat, Inf  
 (IC-72891) Zorawar Singh Jamwal, Inf  
 (IC-72892) Pankaj Singh, Inf  
 (IC-72893) Ravi Panwar, Inf  
 (IC-72894) Gaurav Mishra, Inf  
 (IC-72895) Sharat Anigol, Mech

(IC-72896) Abhishekh Sandhu, Arty  
 (IC-72897) Polumuri Raj Kumar, Int  
 (IC-72898) Sidharth Singh Sambyal, Inf  
 (IC-72899) Jagpal Singh, Inf  
 (IC-72900) Prajwal Dixit, Inf  
 (IC-72902) Gurpreet Singh Arora, Arty  
 (IC-72906) Ankit Malhotra, Inf  
 (IC-72907) Ashwin Pundir, AC  
 (IC-72908) Amrish Dubey, AOC  
 (IC-72910) Abraham Anand Arunkumar, Arty  
 (IC-72912) Sartaj Singh Panu, AOC  
 (IC-72913) Ajay Yadav, AOC  
 (IC-72914) Gopal Arora, Int  
 (IC-72917) Ashish Saxena, Inf  
 (IC-72919) Khaisommang Vaiphei, Inf  
 (IC-72920) Ram Chander, AOC  
 (IC-72923) Shwetabh Singh, Inf  
 (IC-72925) Prashant Dhawan, Int  
 (IC-72927) Mir Nadim, Atry  
 (IC-72929) Krishan Dayal Singh Rathore, Arty  
 (IC-72936) APC Rajesh, Arty  
 (IC-72937) Christo Sudeep D Souza, Arty  
 (IC-72940) Amitabh Ghosal, AC  
 (IC-72941) Vijay Kumar, ASC  
 (IC-72942) Dhruvabrata Kakoti, Inf  
 (IC-72945) Kumar Anurag Singh, Inf  
 (IC-72947) Gaurav Tewari, Inf  
 (IC-72948) Anirudh Anand, Mech  
 (IC-72950) Sain A Navin, Arty  
 (IC-72953) Jitender Singh, Jag

—18 Oct 2008

PRABHAT ROSS

Dy Dir  
 MS-8C

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR  
 BRANCH

No. 384, dated 29th July 2011—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

To be Nb Sub Master Tech Elect

Kishan Singh (No. 14621122L now JC-765804P), 01 Feb 2011

To be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Sri Ram Prasad (No. 14583175X now JC-765719M), 10 Feb 2011/01 Feb 2011\*

Akhileshwar Tiwari (No. 14581819N now JC-766104N), 25 Apr 2011/06 Apr 2011\*

Palaniyasan S (No. 14586176L now JC-765882M), 01 Apr 2011

To be Nb Sub Master Tech B Veh

R Senthil Kumar (No. 14620342H now JC-765664N), 23 Feb 2011/01 Nov 2010\*

Omen Basumatary (No. 14619441Y now JC-765184N), 08 Mar 2011/01 Aug 2010\*

S Arockia Samy (No. 14622667P now JC-765795Y), 01 Mar 2011/01 Feb 2011\*

To be Nb Sub DW

Kisore Ray (No. 14587715H now JC-765592P), 03 Mar 2011/01 Dec 2010\*

Vijay Kumar Singh (No. 14590755P now JC-765952A), 11 Mar 2011/01 Mar 2011\*

Narayan Sharma (No. 14587447K now JC-765584W), 07 Dec 2010/01 Dec 2010\*

To be Nb Sub SKT

Amar Mondal (No. 14613566A now JC-765931K), 11 Mar 2011/01 Mar 2011\*

Rabindra Sharma (No. 14614026N now JC-766073Y), 19 Apr 2011/05 Mar 2011\*

Lalan Pandit (No. 14614109Y now JC-766081X), 23 Apr 2011/01 Apr 2011\*

Asim Mahaldar (No. 14613827H now JC-765314F), 15 Apr 2011/09 Apr 2011\*

Lalit Kumar (No. 14614134X now JC-766085N), 01 Apr 2011

Harish Chandra Kapri (No. 14614044W now JC-766074F), 13 Apr 2011/01 Apr 2011\*

Jasvinder Singh (No. 14614048M now JC-766083H), 18 Apr 2011/01 Apr 2011\*

Raj Kumar (No. 14614133P now JC-766084L), 15 Apr 2011/01 Apr 2011\*

To be Nb Sub Mach

Abhilash Singh (No. 14592352N now JC-765751F), 01 Mar 2011

## To be Nb Sub Tech SA

Jadhav Bhaskar Shankar (No. 14601730L now JC-765898X),  
03 Mar 2011/01 Mar 2011\*

## To be Nb Sub Master Tech Networking

Suresh Kumar K. (No. 14618879H now JC-766010W),  
14 Apr 2011/01 Apr 2011\*

## To be Nb Sub Master Tech Rdr

T Neelakandan (No. 14626860Y now JC-766011Y), 15 Apr  
2011/19 Dec 2010\*

## To be Nb Sub Clk (SD)

Gyan Singh (No. 14593775N now JC-765912Y), 01 Apr  
2011

## To be Nb Sub Master Tech A Veh

Jadhav Sudam Gangadhar (No. 14624584H now JC-  
766001P), 18 Apr 2011/01 Apr 2011\*

\*(Gtd ante dated seniority)

## To be Nb Sub Welder

Chatur Ram (No. 14587204Y now JC-765850K), 01 Apr 2011

Harendra Singh (No. 14585995H now JC-765846F), 01 Apr  
2011

## To be Nb Sub Ptr &amp; Dectr

Anil Kumar (No. 14613472H now JC-765864K), 12 Mar 2011/  
01 Mar 2011\*

## To be Nb Sub Opr &amp; Dvr (Rec)

Ram Babu Singh (No. 14585953W now JC-765883P), 01 Apr  
2011

Bijaya Kumar Sahoo (No. 14585490M now JC-765870X),  
19 Mar 2011/01 Mar 2011\*

Halwadiya Kalpesh Kumar Ddiraj Lal (No. 14586229Y now  
JC-765886H), 01 Apr 2011

Ranvir Singh (No. 14585955F now JC-765884X), 01 Apr 2011

## To be Nb Sub Clk (SD)

Bhanwar Lal (No. 14593221P now JC-765906L), 01 Apr 2011

Bhanwer Lal (No. 14596063W now JC-765918A), 01 Apr  
2011

Kode Eswaran (No. 14593757L now JC-765910N), 01 Apr  
2011

Ram Prasad (No. 14593415X now JC-765629L), 01 Feb 2011

## To be Nb Sub Dvr (MT)

Madan Singh (No. 14590761H now JC-765950P), 07 Mar  
2011/01 Mar 2011\*

## To be Nb Sub Master Tech A Veh

Sankar Dian (No. 14628652H now JC-766029P), 01 Apr 2011

Nagaraju Ardhi (No. 14630092A now JC-766041W), 01 Apr  
2011

Pushkar Ram Chanyal (No. 14626747K now JC-766027K),  
01 Apr 2011

Anirudh Kumar (No. 14630287L now JC-766042Y), 01 Apr  
2011

Chinnappaiyan G (No. 14629662Y now JC-766037N), 01 Apr  
2011

## To be Nb Sub Master Tech (RDR)

Jai Kumar (No. 14629495N now JC-766012F), 01 Apr 2011

## To be Nb Sub Master Tech Comn

Sanjeev Kumar (No. 14630209N now JC-766045M), 01 Apr  
2011

Munesh Kumar (No. 14624309H now JC-765226L), 19 Mar  
2011/01 Sep 2010\*

## To be Nb Sub SKT

Dinesan K V (No. 14614210Y now JC-766090Y), 09 Apr  
2011/01 Apr 2011\*

Wazir Singh (No. 14614154L now JC-766086W), 20 Apr 2011/  
01 Apr 2011\*

Prabodh Kumar Prajapati (No. 14614038H now JC-766060F),  
15 Mar 2011/01 Mar 2011\*

## To be Nb Sub Master Tech (Networking)

Awadhesh Kumar Singh (No. 14618734X now JC-765986N),  
16 Mar 2011/01 Mar 2011\*

## To be Nb Sub Artsnmet

Kamla Prasad (No. 14581259M now JC-766070L), 29 Mar  
2011/08 Jan 2011\*

## To be Nb Sub Tech Comn

Aloke Kumar Mandal (No. 14590168K now JC-765861W),  
01 Apr 2011

## To be Nb Sub Master Tech B Veh

Vinay Kumar Verma (No. 14622752X now JC-765994M),  
14 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*Gtd ante dated seniority

## To be Sub SKT

Babu Ram (JC-763799W), 01 Apr 2011

Anup Kumar Palai (JC-763806F), 15 Apr 2011/01 Apr 2011\*

Mahesh Kumar Kamal Hans (JC-763807K), 13 Apr 2011/  
01 Apr 2011\*

Shinde Vasant Pandit Rao (JC-763810K), 01 Apr 2011	Satyapal (JC-760910K), 01 Apr 2011
Jhonson P J (JC-763805Y), 13 Apr 2011/01 Apr 2011*	Ram Suhavan Garg (JC-760911M), 01 Apr 2011
Rathod Jetha Bhikha (JC-763808M), 13 Apr 2011/01 Apr 2011	Chandra Bhushan Singh (JC-760914A), 04 Apr 2011/01 Apr 2011*
Ashok Kumar (JC-763803N), 01 Apr 2011	To be Sub Master Tech AVN (AE)
Salunkhe Kashinath B (JC-763811M), 04 Apr 2011/01 Apr 2011*	Subrata Sarkar (JC-761007M), 11 Apr 2011/01 Apr 2011*
Bhavishan Kumar (JC-763797L), 11 Apr 2011/01 Apr 2011*	To be Sub AVN Tech Elect
Parmod Kumar (JC-763801H), 05 Apr 2011/01 Apr 2011*	Kamal Kishore Sharma (JC-763149H), 08 Apr 2011/01 Apr 2011*
Dasari Viswanadham (JC-763813X), 02 Apr 2011/01 Apr 2011*	*Gtd ante Date seniroty
To be Sub Tech (SA)	To be Sub Support Staff
Mohammad Yakhoob Ali (JC-762692P), 21 Apr 2011/01 Apr 2011*	Kuldeep Singh (JC-762684W), 01 May 2011
To be Sub DW	Prabhakaran Nair B (JC-761667X), 01 May 2011
Anil Kumar Mondal (JC-762615A), 01 Apr 2011	To be Sub DW
To be Sub Auto Tech A Veh	Subal Kumar Giri (JC-762766Y), 01 May 2011/01 Apr 2011*
Randhir Singh (JC-763478Y), 01 Apr 2011	Vinay Kumar (JC-762605W), 21 Feb 2011/01 Feb 2011*
To be Sub Master Tech B Veh	Keshaw Prasad Pal (JC-762622W), 02 May 2011/01 May 2011*
Narendra Singh Yadav (JC-759881N), 01 Apr 2011	Dayaram Dagdu Mankar (JC-762616H), 01 May 2011/01 Apr 2011*
Rajesh Kumar (JC-759849Y), 01 Apr 2011	Kishori Lal (JC-763138W), 01 May 2011
Ram Niwas Gurjar (JC-759883Y), 01 Apr 2011	D K Bhakta (JC-762618N), 02 May 2011/01 May 2011*
Srinibas Maharana (JC-759728X), 23 Mar 2011/01 Mar 2011*	Kishori Lal (JC-762770F), 01 May 2011
Ved Prakash (JC-759857X), 01 Apr 2011	Byllas Chennaiah (JC-762617L), 01 Apr 2011
Birbar Patra (JC-759845L), 02 Apr 2011/01 Apr 2011*	To be Sub Master Tech Elect
Jitendra Kumar Singh (JC-759852Y), 02 Apr 2011/01 Apr 2011*	Dashrath Lal (JC-759898F), 08 Mar 2011/01 Mar 2011*
Devendra Kumaar Singh (JC-759847H), 01 Apr 2011	To be Sub SKT
Naresh Kumar (JC-759856P), 01 Apr 2011	Murali Ram (JC-763798N), 22 Apr 2011/01 Apr 2011*
Kulbeer Singh (JC-759843X), 01 Apr 2011	Pawar Kisan Dattatraya (JC-764275F), 10 Apr 2011/01 Apr 2011*
To be Sub Master Tech Comn	Vinod Kumar Singh (JC-763901N), 21 Apr 2011/01 Apr 2011*
Hrusikesh Mahanta (JC-759975L), 01 Apr 2011	To be Sub Clk (SD)
Sheo Kumar Singh (JC-759812X), 01 Apr 2011	Mannuel Joseph (JC-761314K), 06 May 2011/01 May 2011*
To be Sub Master Tech Opto Elect	Gajbhiye Anna Khushal Rao (JC-760977H), 03 May 2011/01 May 2011*
Anand Ballabh Joshi (JC-759971P), 11 Apr 2011/01 Apr 2011*	Dilnawaz Akram (JC-760980H), 01 May 2011
To be Sub Clk (SD)	Daya Shankar Yadav (JC-761313F), 01 May 2011
Ashwani Kumar Singh Chauhan (JC-760919Y), 01 Apr 2011	

## To be Sub Tech SA

Md Ayub Nobil (JC-762508Y), 01 May 2011  
 Jadav Kumar Bhima Rao (JC-762899P), 03 May 2011/  
 01 May 2011\*  
 Madan Theng (JC-762896F), 19 Apr 2011/01 Apr 2011\*  
 Gaikwad Nagnath Bramhdeo (JC-762693X), 25 Apr 2011/  
 01 Apr 2011\*

## To be Sub Mach

Rajendra Bilung (JC-762562H), 09 May 2011/01 May 2011\*

## To be Sub Master Tech B Veh

Rakesh Kumar Singh (JC-759632P), 01 Feb 2011  
 Suman Kumar (JC-759863L), 01 Apr 2011  
 Daler Singh (JC-759842P), 13 Apr 2011/01 Apr 2011\*

## To be Master Tech Comn

Rajendra Singh (JC-759807M), 08 Mar 2011/01 Mar 2011\*

## To be Sub Opr &amp; Dvr (REC)

Kutubuddin Ahmed (JC-759512W), 25 Apr 2011/06 Apr  
 2011\*

## To be Sub Auto Tech B Veh

Arun Prakash Roy (JC-763252H), 04 Nov 2010/05 Sep 2010\*  
 Vinay Kumar Singh (JC-763313A), 01 Nov 2010/22 Jun 2010\*  
 Vijay Singh Papola (JC-763960A), 09 Jan 2011/01 Dec 2010\*

## To be Sub Master Tech B Veh

Shajith T K (JC-759714X), 01 Dec 2010  
 Om Prakash Singh (JC-759537H), 14 Dec 2010  
 Prabir Kumar Saha (JC-759608Y), 01 Dec 2010  
 Surendra Kumar (JC-759615P), 01 Dec 2010

## To be Sub Opr Dvr (REC)

Karnal Singh (JC-756768H), 01 Jan 2011/01 Dec 2010\*  
 Trilok Singh (JC-756594Y), 06 Jan 2011/01 Dec 2011\*  
 Lal Sahab Mishra (JC-757226W), 13 Jan 2010/01 Dec 2010\*  
 Entaj Ali Khan (JC-756593W), 01 Dec 2010

## To be Sub Clk (SD)

Satyendra Singh (JC-760770H), 01 Jan 2011

## To be Sub Tech Comn

Rajbir Singh (JC-763880H), 01 Dec 2010

## To be Sub DW

Susil Chandra Roy (JC-762487N), 10 Dec 2010/01 Dec 2010\*  
 Ram Agya Tiwari (JC-762499H), 11 Jan 2011/01 Jan 2011\*  
 Surendra Ray (JC-762470A), 01 Oct 2010/01 Aug 2010\*

Anand Girdhar Singh Rana (JC-762498A), 08 Jan 2011/  
 01 Jan 2011\*

## To be Sub SKT

Digamber Singh (JC-763136L), 01 Dec 2010  
 Bikashjit Dey (JC-763349Y), 12 Jan 2011/01 Jan 2011\*  
 Chanchal Kumar Singh (JC-763259X), 10 Jan 2011/01 Jan  
 2011\*  
 Shibu Kumar Paul (JC-763347N), 14 Jan 2011/01 Jan 2011\*  
 Surendra Singh (JC-763266N), 13 Jan 2011/01 Jan 2011\*  
 Sudhir Kumar Yadav (JC-763258P), 01 Jan 2011  
 Tapan Kumar Das (JC-763350N), 16 Jan 2011/01 Jan 2011\*

## To be Sub Master Tech SA

Dhruva Kishore Singh (JC-762224P), 06 Jan 2011/01 Jan  
 2011\*  
 Ramesh Kumar Gupta (JC-759619L), 01 Jan 2011/01 Dec  
 2010\*

## To be Sub Mach

Vishwanath Nandda Gawai (JC-761583W), 12 Jan 2011/  
 01 Jan 2011\*  
 Vijay Kumar Sirohi (JC-761498N), 01 Dec 2010  
 Jagesh Prashad Mishra (JC-761497L), 15 Dec 2010/01 Dec  
 2010\*

## To be Sub Master Tech Elect

Challa Ch Sekhara Reddy (JC-759644K), 21 Jan 2011/01 Jan  
 2011\*

## To be Sub Tech Radio

Kuldeep Sharma (JC-759636L), 07 Jan 2011/01 Jan 2011\*  
 Sushil Kumar Pandey (JC-759635H), 01 Jan 2011

## To be Sub Artsnmet

Mahadev Waddar (JC-761587M), 12 Jan 2011/01 Jan 2011\*

## To be Sub Master Tech Gun

Sukdeb Mandal (JC-759712M), 01 Jan 2011  
 Shyam Kumar P K (JC-759617A), 28 Dec 2010/01 Dec 2010\*

## To be Sub Welder

Ratan Singh (JC-761488K), 01 Dec 2010  
 Lakhwinder Singh (JC-761493P), 01 Dec 2010  
 Jai Prakash (JC-761492M), 01 Dec 2010

## To be Sub Auto Tech Engr Eqpt

Vimlendu Kumar (JC-763740W), 01 Dec 2010

## To be Sub Master Tech Rdr

Ashwani Kumar (JC-759689K), 01 Dec 2010



Swadesh Ray Chaudhary (JC-759686W), 01 Dec 2010  
 Pita Basa Sahoo (JC-759682A), 30 Dec 2010/01 Dec 2010\*  
 Praful Chand Pal (JC-759691F), 01 Dec 2010

To be Sub Tech SA

Banshi Dass (JC-761150Y), 18 Dec 2010/01 Dec 2010\*  
 Dhamande Gajanan Ramsa (JC-760579F), 28 Dec 2010/  
 01 Nov 2010\*

To be Sub Master Tech GCE

Hardial Singh (JC-759775P), 01 Sep 2010

To be Sub Master Tech Avncs

Raghu Nath Singh (JC-760970Y), 16 Dec 2010/01 Nov 2010\*

To be Sub Master Tech Avn AF

Karak Singh (JC-760957P), 01 Dec 2010

\*(Gtd ante dated seniority)

To be Sub Master Tech Gun

Ashok Kumar (JC-759662M), 28 Nov 2010/01 Nov 2010\*

To be Sub Tech AVF (AVN)

Kamlesh Kumar Chaubey (JC-760966W), 26 Nov 2010/  
 01 Nov 2010\*

To be Sub PTR & DECTR

Ram Bichar Dubey (JC-761500A), 26 Nov 2010/01 Nov 2010\*

To be Sub Welder

Prohallad Mishra (JC-761586K), 01 Mar 2011

Shrikumar Swain (JC-761634Y), 01 Mar 2011

To be Sub Tech Conn

Sisodia Daljit Sinha S (JC-759633X), 01 Jan 2011

To be Sub Master Tech B Veh

Sunil Kumar Misra (JC-759821Y), 01 Jan 2011

Radhe Krishan V (JC-759825P), 01 Feb 2011

V Rudraiah (JC-759830A), 07 Mar 2011/01 Mar 2011\*

To be Sub Master Tech Elect

Bashisht Dubey (JC-759647X), 01 Feb 2011

To be Sub SKT

Vinod Kumar Padhyay (JC-763598X), 02 Mar 2011/01 Mar  
 2011\*

Ram Pal Singh (JC-763794X), 01 Mar 2011

Uttam Kumar Dey (JC-763470M), 01 Feb 2011

To be Sub Master Tech AVF (AVN)

Sukhbeer Singh (JC-761010M), 01 Feb 2011

To be Sub Master Tech B Veh

Arumugam M (JC-759826X), 03 Mar 2011/01 Feb 2011\*

Ravindra Nath Das (JC-759861A), 01 Apr 2011

Satish Kumar (JC-759859H), 01 Apr 2011

Raj Kumar (JC-759834W), 08 Mar 2011/01 Mar 2011\*

Kishan Lal Yadav (JC-759840K), 01 Apr 2011/01 Mar 2011\*

Jaivir Singh (JC-759860X), 01 Apr 2011

Hari Kishan (JC-759837K), 07 Mar 2011/01 Mar 2011\*

To be Sub Supporting Staff

Sukhvinder Singh (JC-762115H), 01 Mar 2011

To be Sub Skt

Narendra Singh (JC-763599A), 23 Mar 2011/01 Mar 2011\*

G Mahalingam (JC-763590L), 07 Feb 2011/01 Feb 2011\*

To be Sub DW

Mahesh Prasad (JC-762612M), 01 Apr 2011

To be Sub AC & RF Mech

Sanjay Kumar (JC-762094X), 01 Apr 2011

To be Sub Auto Tech B Veh

Gokul Chand Das (JC-763718L), 01 Apr 2011

To be Sub Clk (SD)

Niranjan Das (JC-760915H), 01 Apr 2011

Raj Kumar (JC-760912P), 01 Apr 2011

Bheem Singh (JC-760918W), 01 Apr 2011

To be Sub Master Tech Conn

Prem Chand Sharma (JC-759972X), 01 Apr 2011

Almeda David Manvel (JC-759810M), 01 Apr 2011

Udaya Nath Lenka (JC-759974H), 01 Apr 2011

Sunil Kumar Singh (JC-757410F), 23 Mar 2011/07 Dec 2010\*

Dharamvir Singh (JC-759813A), 01 Apr 2011

To be Sub Tech SA

More Madhav Tukaram (JC-762690K), 06 Mar 2011/01 Mar  
 2011\*

Biswajit Das (JC-762689P), 01 Mar 2011

To be Sub Master Tech Gun

Dharma Singh (JC-759870F), 11 Mar 2011/01 Mar 2011\*

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
 Under Secy

## AIR BRANCH

No. 385, dated 29th July 2011—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING BRANCH

## To be Subs Air Marshal

Rank, Name, No., BR and Date

Air Mshl PR Sharma AVSM (13927), F(P), 01 April 2011

## To be Subs Air Vice Marshal

AVM BS Dhanoa (15405), F(P), 14 Jun 2010 (NS-17 May 2010)

(His name will appear below AVM KS Gill (11520) F(P) and above AVM as Bhonsle (15327) F(P) in the Combined Gradation List)

AVM DP Upot (15544), F(P), 14 Jun 2010

AVM PS Mann (15570), F(P), 14 Jun 2010

AVMRK Dhir (15678), F(P), 14 Jul 2010

AVM S Neelakantan (15184), F(P), 30 Mar 2011 (NS-09 Aug 2010)

AVM A Khosla (15871), F(P), 01 Dec 2010

AVM C Harikumar (15881), F(P), 24 Dec 2010

AVM SRK Nair (16040), F(P), 01 Jan 2011

AVM SBP Sinha (16053), F(P), 01 Feb 2011

AVM SH Singh (16071), F(P), 01 Feb 2011

AVM CV Subramaniam (14982), ACCTS, 01 Mar 2011

## To be Subs Air CMDE

Air CMDE PK Mukherjee (15381), ACCTS, 01 Mar 2011

## To be Subs GP Capt

GP Capt KC Taneja (17072), EDN, 01 Apr 2011

## To be Subs GP Capt (Flying Branch)

GP Capt (ACTG) KVR Raju (18573), F(P), 02 Mar 2009

(His name will appear above GP Capt J Mishra (18575), F(P) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) P Upadhyay (18581), F(P), 06 Jul 2009 (NS-01 Apr 2009)

(His name will appear above GP Capt V Bhalotra (18579), F(P) and above Gp Capt U Kumar (18582) F(P) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) NK Atri (18088), F(P), 01 Jun 2009

(His name will appear below GP Capt EK Prasad (18600), F(P) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) AK Bharti (18781), F(P), 13 Sep 2010 (NS-01 Jun 2009)

(His name will appear above GP Capt AR Gore (18783), F(P) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) N Kanitkar (18799), F(P), 15 Feb 2010 (NS-14 Dec 2009)

(His name will appear below GP Capt R Vaid (18798), F(P) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) A Vohra (18801), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) OJS Malhi (18803), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) PS Jajman (18804), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) T Singh (18806), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) R Ranjan (18810), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) A Sharma (18811), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) V Dedgaonkar (18813), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) GR Reuben (18814), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) SSP Rao (18820), F(P), 15 Feb 2010 (NS-14 Dec 2009)

GP Capt (ACTG) TS Chauhan (18821), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) KSK Suresh (18822), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) M Y Marathe (18824), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) B Johri (18831), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) S Jose (18839), F(P), 14 Dec 2009

GP Capt (ACTG) N Bhalla (19160), F(P), 01 Jan 2010

GP Capt (ACTG) PK Vohra (19162), F(P), 01 Jan 2010

GP Capt (ACTG) R Chawla (19168), F(P), 01 Jan 2010

GP Capt (ACTG) R Purohit (19170), F(P), 28 Jan 2010

GP Capt (ACTG) S Puri (19176), F(P), 15 Feb 2010

GP Capt (ACTG) H Bains (19180), F(P), 01 Mar 2010

GP Capt (ACTG) S Sood (19181), F(P), 01 Mar 2010

GP Capt (ACTG) P Maheswar (19183), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) P Sharma (19186), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) S Sharma (19189), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) Y Singh (19190), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) A Mukherjee (19191), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) VVN Srikanth (19195), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) S Chowdhary (19207), F(P), 31 Jul 2010 (NS-01 Apr 2010)

GP Capt (ACTG) A K Puntambekar (19210), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) S Antony (19211), F(P), 01 Apr 2010

GP Capt (ACTG) S Srinivasan (19520), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) S Mehra (19524), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) KVS Nair (19528), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) B Goel (19530), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) PR Jayachandran (19536), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) K Khajuria (19538), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) D Vedajna (19539), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) BS Bhullar (19543), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) MB Aserkar (19540), F(P), 01 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) M Ravi Kiran (19550), F(P), 16 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) MM Rao (19556), F(P), 16 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) SK Mishra (19570), F(P), 17 Apr 2010  
 GP Capt (ACTG) HA Rather (19863), F(P), 01 May 2010  
 GP Capt (ACTG) S Dhankar (19865), F(P), 01 May 2010  
 GP Capt (ACTG) SS Sharma (19866), F(P), 01 May 2010  
 GP Capt (ACTG) R Verma (19868), F(P), 01 May 2010  
 GP Capt (ACTG) S Khanna (19870), F(P), 03 May 2010  
 GP Capt (ACTG) PV Satish (19876), F(P), 01 Jun 2010  
 GP Capt (ACTG) SM Wahid (19887), F(P), 01 Jun 2010  
 GP Capt (ACTG) EJ Anthony (19892), F(P), 01 Jun 2010  
 GP Capt (ACTG) SK Verma (19895), F(P), 01 Jul 2010  
 GP Capt (ACTG) RV Shinde (19897), F(P), 03 Nov 2010 (NS-06 Jul 2010)  
 GP Capt (ACTG) PV Shivanand (19901), F(P), 06 Jul 2010  
 GP Capt (ACTG) P Sen (19907), F(P), 16 Jul 2010  
 GP Capt (ACTG) S Mishra (19965), F(P), 01 Aug 2010  
 GP Capt (ACTG) V Kumra (19881), F(P), 02 Aug 2010  
 GP Capt (ACTG) S Thinless (19970), F(P), 16 Aug 2010

AK SINGH  
 Dy Dir Personnel (Officer)-2B

AIR FORCE

No. 386, dated 29th July 2011—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

INDIAN AIR FORCE

Sqn Ldr to be Subs Wg Cdr

ADM Branch

J Singh (23602), GNVV Anand (23626), R Sharma (23607), AC Pandey (23599), TS Khan (23614), A Roy (23617), MV Nilangekar (23611), SH Bandari (23601), ST Punathil (23596),

SG Pisey (23623), HK Pande (23592), M Bhardwaj (23593), PJPS Waraich (23594), JP Patro (23621), SR Tripathy (23622), R Srinivasan (23590), T Sanil (23609), RD Deshpande (23631), R Janardhanan (23603) wef 17 Jun 2008

EDN BRANCH

MA Deshpande (23633), HCS Chauhan (23632), ST Namgyal (23635) wef 17 Jun 2008

MET BRANCH

MT Nanjappa (23135) wef 17 Jun 2008

PERMANENT COMMISSION

F(P) BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

N Rai (29931) wef 21 Jun 2010

SHORT SERVICE COMMISSION

AE(L) BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

P K Gupta (30109) wef 07 Jul 2010

Mrs SB Pillai (22456) wef 06 Apr 1998

TARUN KHARE  
 Wing Commander  
 JT Director  
 Personnel Offrs-3(D)

ARMY BRANCH

No. 387, dated 01 Aug 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 25 Jun 2010 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Shailza Chaudhary (MS-15151W) (MR-09157F), AMC, 16 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 May 2007 in so far as relates to the officer is hereby cancelled)

Neha Garg (MS-15329F) (MR-09144K), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as relates to the officer is hereby cancelled)

Makwana Saurabhabhai Kantibhai (MS-15363F) (MR-09140N), AMC, 22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 22 Sep 2007 in so far as relates to the officer is hereby cancelled)

Arunava Mukherjee (MS-15327W) (MR-09131M), AMC,  
22 Sep 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated  
22 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby  
cancelled)

Jindamwar Prashant Dharmanna (MS-15139P)  
(MR-09130K), AMC, 16 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated  
17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby  
cancelled)

To be Lt

Mohan Sharma (MS-15532X) (MR-09155W), AMC, 26 Mar  
2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated  
05 Jul 2008 in so far as it relates to the officer is hereby  
cancelled)

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 388, dated 01 Aug 2011—The President is pleased to  
retire Sh. Amar Singh (DOB : 12 Jul 1951) Section Officer in the  
Ministry of Defence from Government Service with effect from  
31 Jul 2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI  
Under Secy

No. 389, dated 1st August 2011—The following Ministry  
of Defence Notifications dated 11 May 2011 stands  
cancelled :—

No. A-19013/2/2007-D(Estt.I/Gp.I) in respect of  
Sh. Subhash C Sharma, Director

No. A-19013/15/2010-D(Estt.I/Gp.I) in respect of  
Sh. KS Rao, Dy Secretary; and

No. A-19013/7/2009-D(Estt.I/Gp.I) in respect of  
Sh. SS Mehra Dy Secy

K MURALI  
Under Secy